

क्या ऐसी होती है स्मार्ट सिटी..? फिर एक मौत..!!

# निगम की साख मिट्टी में..!!

शंकर बाग क्षेत्र में सितंबर में दो मासूम बह गए थे। मुंह सामने बहते बच्चों को सब बेबसी से देखते रहे पर बचा नहीं पाए, क्योंकि घंटेभर बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के अमले के पास एक मजबूत रस्सा भी नहीं था। दो दिन बाद दोनों मासूमों की कीचड़ में धंसी देह मिली। **तब खुलासा फर्स्ट ने शहर के जिम्मेदारों को आगाह किया था कि इंदौर को मेट्रो बाद में देना, पहले जान बचाने का एक रस्सा खरीद लो। किसी ने कोई सबक नहीं लिया।**



नितिन मोहन शर्मा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

शुक्रवार को ये हादसा तब फिर याद आ गया, जब एक मजदूर की मौत मिट्टी धंसने से हो गई। मौके पर फिर वही बेबसी थी। मजदूर की जान बचाने का कोई संसाधन मौके पर नहीं था। जो पोकलेन और जेसीबी काम कर रही थी, उसके चालक मौके से भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद लोगों हतप्रभ रह गए कि ये कैसी स्मार्ट सिटी? जहां सिटी को नित नया आकार देने वाले मजदूर को बचाया ही नहीं जा सके...!! इंदोरियों ने निगम से कोई मदद आते न देख खुद ही अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें दम तोड़ चुकी थीं।

ठीक ऐसा ही हादसा करीब दो ढाई महीने भी हुआ था। तब भी काम करते दो मजदूर मिट्टी धंसने से काल कवलित हो गए थे। तब जिम्मेदारों ने अफसोस जताते हुए भरोसा दिलाया था कि भविष्य में ऐसे किसी हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, लेकिन हादसा हो गया और जान बचाने का कोई संसाधन नहीं मिल पाया। मजदूर करीब आधा घंटा मिट्टी के अंदर धंसा रहा। रहवासियों ने हाथ से मिट्टी हटाकर मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक जान चली गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो अगर वक्त पर जल्दी से मिट्टी हट जाती तो मजदूर को सांस लेने में आसानी हो जाती और उसकी जान बच जाती। पर अफसोस...!!

मजदूर नगर निगम के सरवटे टू गंगवार सड़क प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मच्छी बाजार नाले के

खुलासा  
EXCLUSIVE

1. मिट्टी धंसने से फिर एक मजदूर की दर्दनाक मौत, दो महीने पहले भी हुए ऐसा हादसे में हुई थी दो मौत

2. लगातार हो रहे हादसे के बाद भी नहीं चेतते निगम अफसर, ठेकेदार का मजदूर बता झाड़ा पल्ला



पास पोकलेन की खुदाई में ये हादसा हुआ। ऐसे ही शहर में कई जगह निगम के काम चल रहे हैं। इसमें नाला टेपिंग का काम रिस्क वाला होने के बावजूद संभावित घटना दुर्घटना को लेकर कहीं कोई तैयारी नहीं होना क्या दर्शाता है? जिस शहर में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे और सैकड़ों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं, वहां संभावित घटना दुर्घटना को लेकर चौकन्नापन नदारद क्यों है? वो भी लगातार होती घटनाओं के बावजूद। निगम के जिम्मेदार इससे कोई सबक क्यों नहीं लेते?

ठेकेदार का आदमी था... ऐसा कहकर दर्दनाक घटना से पल्ला झाड़ना क्या शोभा देता है, उस नगर निगम को जिसका डंका देशभर में बज रहा है। चौके-छक्के-सत्ते मारने के शोर में क्या ये बेबसी की इन मौतों की चीत्कार सुनाई नहीं देती? या मरने वाला रोज कमाने खाने वाला था तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? जो मरा, वो किसी परिवार का बेटा, पिता, पति, भाई होगा न? मासूम बच्चे होंगे न? जीवित देह थी न उसकी जब घर से काम पर निकला होगा? आपने उसके घर निर्जीव देह क्यों पहुंचाई? सिर्फ इसलिए कि आपके पास ऐसे कैसी हादसे में जान बचाने के साधन संसाधन नहीं है...!! ये तो शर्म के साथ साथ डूब मरने वाली बात हुई न?

तो है शहर कर्णधारों। हम वो ही शब्द फिर दोहराते हैं, जो दो मासूमों के बहते वक्त आपसे कहे थे। हे स्मार्ट सिटी के मालिकों। हे सपनों के शहर का जाप करने वालों। हे आधुनिक इंदौर का सपना दिखाने वालों। आप सबसे विनती है कि आप इस शहर में मेट्रो बाद में लाना। मोनो रेल बाद में चलाना। एलिवेटेड ब्रिज बाद में बनाना। इसके पहले किसी अकस्मात हादसे में जान बचाने का तंत्र विकसित कर ले। कुछ संसाधन जुटा ले, ताकि कहीं भी ऐसा हादसा हो तो घंटों नहीं, मिनटों में राहत पहुंच जाए, ताकि मिट्टी में निगम की साख दिन ब दिन धंसती न जाए।



## निगम अफसर निर्माणकर्ता पर मेहरबान बैकलेन पर कब्जा, धर्मशाला से सटकर बन रही बिल्डिंग

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

नगर निगम मुख्यालय की नाक के नीचे जेल रोड स्थित जायसवाल नवयुवक मंडल धर्मशाला के पीछे सात फीट चौड़ी बैकलेन पर कब्जा कर एक डॉक्टर बिल्डिंग बना रहा है। धर्मशाला की दीवार से सटाकर दीवार बनाई जाने की शिकायत करने के बाद भी निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि निर्माण कार्य लगातार जारी है।

नगर निगम के अफसरों में अफसरशाही हावी है। इसके चलते अफसर अपनी कमाई के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं। इससे अफसरों की जेब भरती है, जबकि आमजन परेशान होते रहते हैं। इस तरह की शिकायतें नगर निगम, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में करने के बाद भी शिकायतकर्ता को न्याय की गुहार लगाने के लिए निगमायुक्त व महापौर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही मामले का खुलासा जनहित में खुलासा फर्स्ट कर रहा है। इस मामले में निगम मुख्यालय की नाक के नीचे जेल रोड पर जोन 3 वाई 57 में जायसवाल नवयुवक मंडल धर्मशाला के पीछे की ओर सात फीट चौड़ी बैकलेन है।

धर्मशाला के ठीक पीछे के प्लॉट पर निर्माणकर्ता राजेंद्र नाइक ने प्लॉट नंबर 5/12 जेल रोड पर निर्माण शुरू किया तो सात फीट चौड़ी बैकलेन पर कब्जा कर धर्मशाला की दीवार से दीवार सटाकर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण की शिकायत जब जायसवाल धर्मशाला ट्रस्ट के सदस्यों ने नगर निगम जोन 3 के भवन अधिकारी शांतिलाल यादव और भवन निरीक्षक विनोद मिश्रा से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि निर्माणकर्ता द्वारा तीन मंजिला भवन बनाने का कार्य लगातार जारी है। बताया जाता है कि डॉक्टर नाइक ने पूर्व में भी बैकलेन पर निर्माण किया था जिस पर निगम ने रिमूव कर कार्रवाई की थी। उसी बैकलेन पर अब दोबारा निर्माण कर तीन मंजिला बिल्डिंग बना रहा है। और निगम अफसर मूकदर्शक बने हुए हैं।

शिकायतकर्ता से ही मांगे दस्तावेज



शिकायत की

जायसवाल धर्मशाला के ट्रस्टी ने बताया कि उनके द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई में भी शिकायत की गई, लेकिन कलेक्टर के निर्देश पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई, बाद में वहां से जवाब आया कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो गई है इसलिए शिकायत

बंद की जाती है। जबकि हकीकत में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने भवन निरीक्षक विनोद मिश्रा और भवन अधिकारी शांतिलाल यादव पर निर्माणकर्ता से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मिलीभगत होने के कारण ही अब तक निगम ने कार्रवाई नहीं की है।

**दस्तावेज की मांग...** नगर निगम जोन तीन के भवन निरीक्षक विनोद मिश्रा के समक्ष जब शिकायतकर्ता ने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने की जगह उससे ही दस्तावेज मांगना शुरू कर दिए। जबकि बैकलेन पर निर्माणकर्ता डॉ. नाइक द्वारा कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भी निगम अफसर जानबूझकर कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रहे हैं।

मैं मामले की जांच कराता हूँ। बैकलेन पर कब्जा किया होगा तो कार्रवाई की जाएगी।  
**शांतिलाल यादव**, भवन अधिकारी जोन 3

शिकायतकर्ता से मैंने दस्तावेज मांगे जो प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्रवाई नहीं की गई।  
**विनोद मिश्रा**, भवन निरीक्षक जोन 3

## निगमायुक्त की फटकार के बाद वसूली अभियान ने पकड़ी रफ्तार

अपर आयुक्त राजस्व अभिषेक गेहलोत ने संभाला मैदान, दिनभर चली सख्त कार्रवाई खुलासा फर्स्ट... इंदौर



कार्रवाई के डर से हाथोहाथ दिए चेक...

वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने से मार्च माह में निगम ने करीब 150 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य तय किया है। इसके चलते सहायक राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप वसूली न कर पाने पर निगमायुक्त ने सहायक राजस्व अधिकारियों को फटकार लगाई। जिसके बाद निगम के अपर आयुक्त, राजस्व प्रभारी मैदान में उतर गए और एक ही दिन में तीन जोन में बड़ी कार्रवाई कर भारी भरकम राशि वसूली।

नगर निगम का खाली खजाना भरने के लिए निगम ने वसूली की कार्रवाई तेज कर दी है। बड़े बकायादारों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति सील कर कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी मार्च माह में अब तक लक्ष्य के अनुरूप वसूली न होने से निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने नाराजगी जताते हुए सहायक राजस्व अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद निगम के अपर आयुक्त अभिषेक गेहलोत ने वसूली के मामलों को रफ्तार देने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसके चलते गतदिवस अपर आयुक्त गेहलोत निगम जोन 7 पर पहुंचे। यहां राजस्व विभाग के अमले के साथ 5 लाख से बड़े बकायादारों की जानकारी ली और मौके पर कार्रवाई कराते हुए चार जब्ती व कुर्की की कार्रवाई कराने के साथ ही लगभग दस लाख रुपये की वसूली की।

इसके अलावा कई स्थानों पर बड़े बकायादारों की संपत्ति सील की गई। इसके चलते अधिकतर बकायादारों ने हाथोहाथ चेक के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया। इसी तरह अपर आयुक्त अभिषेक गेहलोत जोन 8 पहुंचे और उनके निर्देशन में वाई 35 में सुरेंद्रसिंह अनरेजा पर 2,94,077 रुपये सम्पत्ति कर बकाया होने पर उनकी संपत्ति सील की गई। इसी तरह जोन 8 वाई 35 में दर्शन पाहवा पर 6,65,195 रुपये सम्पत्ति कर बकाया होने पर संपत्ति सील की गई।

मंदिर की दुकानों की सील...

नगर निगम ने वसूली अभियान तेज करते हुए एक साथ शहरभर में सख्ती से वसूली शुरू कर दी है। इसके चलते गत दिवस वाई 42 जोन 10 में गायत्री मंदिर की दुकानों पर 1 लाख 61 हजार रुपये टैक्स बकाया होने पर उपायुक्त लता अग्रवाल की मौजूदगी में दुकानें सील की गईं। इसी तरह शनिवार को भी निगम का अमला वसूली अभियान में सक्रिय हो गया है।

## सॉलिड वेस्ट पर आयोजित नेशनल कांफ्रेंस में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा वेस्ट से बेस्ट करने में इंदौर अग्रणी

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर दो दिवसीय कांफ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। बिल्डिंग द प्यूर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रीसाइक्लिंग इंडिया विषय पर आयोजित इस कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के देश-भर से अलग-अलग कंपनियों के फाउंडर और स्टार्टअप शामिल हुए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर पुष्यमित्र भार्गव रहे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस फील्ड में अपनी सफलता,

चुनौतियों और समस्या के निराकरण पर बात करते हुए इंदौर शहर में वेस्ट से बेस्ट को लेकर किए गए काम और हाल ही में सोलर प्लांट के लिए ग्रीन बॉर्ड जारी करने जैसी कई बात कंपनी और स्टार्टअप ऑनर्स के सामने रखी। उन्होंने कहा कि बेस्ट को लेकर यदि और क्रिएटिव आइडिया आते हैं तो वह इसे इंदौर नगर निगम के पास लेकर आए उस पर जरूर काम किया जाएगा। आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। शहर के वेस्ट से बेस्ट और स्वच्छता की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। देश के कई ऐसे शहर जिन कामों को करने का सोचते हैं उन्हें इंदौर शहर करके आगे बढ़ चुका होता है।

महापौर ने अवार्ड के लिए शहर की जनता को बधाई दी

## जनता की भागीदारी से इंदौर को मिला रैन वाटर हार्वेस्टिंग अवार्ड

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

रैन वाटर हार्वेस्टिंग में इंदौर नगर निगम के द्वारा किए गए कार्यों के चलते वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड दिया गया। दिल्ली में होटल जयश्री कॉन्टीनेंटर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अवार्ड सौंपा। वह अवार्ड लेकर लौटे दल ने शुक्रवार को अवार्ड महापौर को सौंपा। इस अवार्ड के लिए महापौर ने निगम कर्मचारियों व जनता को बधाई दी है।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय

जलशक्ति मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को के सहयोग से इंदौर नगर निगम को वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंदौर नगर पालिक निगम के जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा को सौंपा। वह अवार्ड और प्रशस्ति पत्र शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सौंपा। इस मौके पर महापौर ने कहा कि यह विश्व जल अवार्ड इंदौर की जनता की सहभागिता से प्राप्त हुआ है।



एक लाख पंद्रह सौ घरों में सिस्टम शुरू कर जियो टैगिंग की गई

वाटर वॉरिंस के रूप में इंदौर नगर पालिक निगम का चयन जल संचयन में नवाचार रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया गया है। नगर पालिक निगम के द्वारा एक लाख पंद्रह सौ 101500 घरों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू कर जियो टैगिंग की गई। 11 रिचार्ज जोन या छोटे तालाब और 8 चैनल की सफाई एवं 350 जलस्रोत कुआं, बावड़ियों का जीपीएचआर और 10 बड़े तालाबों से डिसिल्टिंग के साथ 110 एमएलडी वाटर रियूज किया जा रहा है। इससे प्रतिमाह 10 लाख रुपये की निगम को आय प्राप्त होती है इस तरह अब तक लगभग 40 लाख रुपये की सेविंग की गई है।



# लापरवाही... इनेज ने फिर ली एक मजदूर की जान

निगम अफसरों की लापरवाही मजदूर को बचाने की जगह अफसर मौके से गायब हुए, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मच्छीबाजार क्षेत्र में नाला टैपिंग के पाइप डालने का कार्य हो रहा है। इसके चलते वहां पोकलेन मशीन से स्मार्ट सिटी के इंजीनियर कार्य करा रहे हैं। सीवरज पाइप लाइन की गहराई नापने के लिए एक मजदूर को भेजा तो वह मिट्टी में धंस गया। एकाएक मजदूर के मिट्टी में धंसने से वहां भीड़ जुट गई। भीड़ बढ़ती देख निगम स्मार्ट सिटी के अफसर और पोकलेन चालक भाग गए। बाद में जैसे जैसे मजदूर को मिट्टी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे बस स्टैंड तक 80 फीट चौड़ी बनाई जा रही। स्मार्ट सिटी इंजीनियर डी आर लोधी की निगरानी में बनाई जा रही इस सड़क के एक तरफ नगर निगम नाला टैपिंग के तहत पाइप लाइन बिछाने का काम कर रहा है। गतदिवस मच्छी बाजार ब्रिज के आगे शाम के समय पोकलेन मशीन द्वारा की जा रही खुदाई के बाद अचानक मिट्टी धंस गई और एक मजदूर की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। इस घटना को देखते ही वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

मौके पर भीड़ बढ़ती देख निगम अफसर और पोकलेन चालक वहां से गायब हो गए। बाद में लोगों ने अन्य मजदूरों के साथ मिलकर मिट्टी हटाकर मजदूर को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। इस बीच दूसरी साइट पर काम कर रहा जेसीबी चालक आया और उसने पोकलेन से मिट्टी हटाई। भारी मशकत के बाद करीब आधे घंटे में मिट्टी मिट्टी में दबे मजदूर को निकाला जा सका। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।



मच्छीबाजार क्षेत्र में नाला टैपिंग के पाइप डालने का कार्य हो रहा है।

## ठेकेदार का कर्मचारी

मच्छी बाजार में मिट्टी में धंसने से मजदूर की मौत होने के मामले में स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह ने बताया कि ठेकेदार विकट्री वहां काम कर रहा है। बताया जाता है कि जिस मजदूर को पाइप के लिए नपती करने के लिए उतारा वह बीमार था। उसी समय मिट्टी धंस गई। इससे उसकी असमय मौत हो गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यदि ठेकेदार की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

## इनेज में मौत

गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व ही रीगल तिराहे पर इनेज की वजह से ही मजदूर की मौत हुई थी। इसके बाद भी निगम अफसर नहीं चेते और मच्छी बाजार में नाला टैपिंग का काम ठेकेदार के भरोसे छोड़ खुद गायब हो गए। इस कारण ही लगातार दूसरी बार कार्य के दौरान ही मजदूर की मौत हुई। इस मामले की जानकारी लेने के लिए स्मार्ट सिटी इंजीनियर डी आर लोधी से संपर्क करना चाहा लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

## अस्पताल भी मंदिर से कम नहीं, यहां न हो राजनीति मिल क्षेत्र को मिल रही सौगात में आड़े आ रही नेतागिरी

लेबर रूम के पास सालों  
पुराना पेड़ बाउंड्री से हटाया  
ताकि मंदिर बन जाए



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

गरीब मरीज के लिए सरकारी अस्पताल की सुविधा जैसी सौगात कितनी महत्वपूर्ण है, यह कोरोना काल में सभी को समझ में आ गया है, लेकिन हमारी राजनीति में वोटों को खुश करने के लिए कैसे निर्णय लिए जाते हैं और अफसर भी दायरे से बाहर जाकर नेताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, इसका उदाहरण आंबेडकर नगर में सालों के इंतजार के बाद तैयार हुए मांगीलाल चूरिया अस्पताल में देखने को मिला।

दरअसल, कोरोना काल के कारण 24 साल पुरानी इमारत में चल रहे मांगीलाल चूरिया अस्पताल को नई इमारत नहीं मिल पाई थी। दो साल पहले यहां लेबर रूम में छज्जा गिर गया था, भाग्यवश कोई शिकार नहीं बना। इसके बाद दोबारा काम में शुरू हुआ। अब जाकर इमारत स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने की बारी आई है। कलेक्टर इलैया राजा टी. ने एक हफ्ते पहले वहां दौरा किया और बचे कामों को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही कलेक्टर तक बाउंड्रीवॉल से पीपल का पेड़ बाहर करने की शिकायत भी पहुंची। दरअसल, कुछ स्थानीय लोग पीपल के पेड़ पर चबूतरा बनाकर मंदिर तैयार करना चाहते हैं। विधायक महेंद्र हार्डिया का नाम लेकर दबाव बनाया गया, तो अधिकारियों ने बाउंड्रीवॉल के तीन कोने में घुमाकर चबूतरे की शकल दे दी।



## लेबर रूम-ओटी हैं पास

पेड़ के पास ही लेबर रूम और ओटी हैं। जहां प्रसूति और सामान्य ऑपरेशन होंगे। अस्पताल स्टाफ और कई रहवासी भी इसके खिलाफ हैं। चबूतरे पर मूर्ति स्थापित करने के साथ धार्मिक आयोजन करने की तैयारी है। अस्पताल शुरू होने पर मरीजों के लिए शोर-शराबे से नई परेशानी खड़ी हो जाएगी।

## मामला मेरी जानकारी में नहीं

मैंने बाउंड्रीवॉल से छेड़छाड़ के लिए किसी को नहीं कहा। यह मेरी जानकारी में भी नहीं है। मैं पूरे मामले का पता लगाता हूं।  
महेंद्र हार्डिया, विधायक-5

## पेड़ अस्पताल से दूर

पेड़ अस्पताल से दूर था, इसलिए उसे बाहर किया है। यह सही है वह अस्पताल को मिली शासकीय जमीन के दायरे में है। यदि भविष्य में बाउंड्रीवॉल को ठीक करना हो तो एक ही दीवार उठाना होगी, यह भी हमारी प्लॉनिंग में शामिल है।  
डॉ. बीएस सैत्या, सीएमएचओ इंदौर

## महापौर ने कॉलोनी सेल अधिकारियों को दिए निर्देश

# इंदौर की 80 अनाधिकृत कॉलोनियां वैध होंगी, प्रक्रिया तेज

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

महापौर ने इसी माह में शहर की 80 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। इसके चलते कॉलोनी सेल के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें कॉलोनी सेल विभाग द्वारा कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई के साथ ही शासन के नियमों व प्रावधान की जानकारी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार महापौर पुष्यमित्र भागव ने अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेज करते हुए इसी माह शहर की 80 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है।

महापौर ने बताया कि शहर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। कार्रवाई के

चलते कितनी कॉलोनियों के दावे-आपत्ति आए हैं, कितनी कॉलोनियों के दावे आपत्तियों का निराकरण हो गया। कॉलोनी सेल के अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में अपर आयुक्त मनोज पाठक व अधीक्षण यंत्रि भवन अनुज्ञा अनुप गायल ने महापौर को बताया कि शहर की 134 अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्यवाही जारी है। इसके चलते दावे-आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। मौजूदा में 98 कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही प्रचलन में है। इस पर महापौर ने शीघ्र 100 कॉलोनियों को अवैध से वैध करने की कार्यवाही करने की हिदायत दी। महापौर ने मौके पर ही अधिकारियों को शहर की 100 कॉलोनियों को वैधता प्रमाण पत्र जारी करने तथा संपूर्ण कार्रवाई को पूर्ण करने के निर्देश दिए।





# 57 हजार रजिस्ट्रियां दोगुने-तिगुने दामों पर

गाइड लाइन के पूर्व ही कुछेक क्षेत्रों में ज्यादा भाव से सब चौके

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

15 मार्च तक हुई कुल 70,300 रजिस्ट्रियों में से करीब 57 हजार रजिस्ट्रियां ज्यादा दामों पर होने से अफसरों के साथ रियल एस्टेट से जुड़े लोग भी चौंक गए हैं। अभी गाइड लाइन लागू नहीं हुई है और ज्यादा दाम पर रजिस्ट्री होना दर्शाता है कि प्रॉपर्टी के प्रति लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ है। वे सबसे सटीक निवेश प्रॉपर्टी में मान रहे हैं।

जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अनुमानित दर से दोगुने-तीन गुने दामों पर हुई है उनमें बायपास, सुपर कॉरिडोर, एबी रोड व उज्जैन रोड आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। 15 मार्च तक कुल 70295 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें से 56876 रजिस्ट्री अधिक दामों पर हुई है। इसमें आवासीय के साथ कृषि भूमियां भी शामिल हैं। बढ़ती हुई इस ट्रेड को देखते हुए पंजीयन विभाग ने शहर के आउटर क्षेत्रों की 172 लोकेशन पर जमीन की दरों में न्यूनतम 25 व अधिकतम 60 प्रतिशत से ज्यादा तक बढ़ती प्रस्तावित की है। 1084 लोकेशन पर 0 से 25 प्रतिशत या इससे ज्यादा के बीच तीन स्लैब बनाकर वृद्धि प्रस्तावित है।

इस साल गाइडलाइन में 158 नई कॉलोनियों के दाम खोले गए हैं। ये प्रस्ताव बीते बुधवार को कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में विचार के लिए रखे गए। सदस्यों के साथ चर्चा के बाद समिति ने प्रस्तावित दरों को मंजूरी दे दी। कलेक्टर डॉ. राजा ने बताया कि, इस साल औसत बढ़ती 5.38 प्रतिशत की गई है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है, वास्तविक खरीदार को ज्यादा स्टॉप शुल्क नहीं चुकाना पड़े। उन्हीं क्षेत्रों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जहां विकास हो रहा है। इसके कारण प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन चल रहा है।



बड़ी हुई दरों का ट्रेड

बैठक में बताया गया कि 85 लोकेशन पर 200 प्रतिशत, 232 पर 100 से 200 प्रतिशत, 1248 पर 26 से 100 फीसदी व 1621 लोकेशन ऐसी है, जहां 1 से 25 प्रतिशत ज्यादा पर प्लॉट, कृषि भूमि व फ्लैट की गाइडलाइन से ज्यादा मूल्य पर रजिस्ट्री की गई है।

क्लिक पर मिलेगी गाइडलाइन

आगामी अप्रैल से संपदा-2 लागू किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन की जियो मैपिंग भी की गई है। जिसमें एप के माध्यम से क्लिक करने पर लोकेशन व दाम मिल जाएंगे। यानी जिस स्थान पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वहीं पर तत्काल गाइडलाइन भी मोबाइल पर पता कर सकेंगे।

कल तक दे सकते हैं आपति

गाइडलाइन का प्रकाशन ऑनलाइन, कलेक्टर व पंजीयन कार्यालयों में किया जा रहा है। इस पर 18 मार्च तक सुझाव, दावे-आपतियां दी जा सकती हैं। जिन पर सुनवाई कर गाइडलाइन में संशोधन किया जा सकेगा। इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मूल्यांकन समिति में रखी जाएगी।

बालकृष्ण मोरे, उप महानिरीक्षक पंजीयक।

## सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली जमीन की जीआईएस मैपिंग

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईडीए को स्कीम नंबर 97 के पार्ट-4 में मिली करोड़ों की जमीन की जीआईएस मैपिंग करवाई जा रही है। जमीनों की वास्तविक स्थिति देखने के लिए आईडीए गूगल शीट का भी उपयोग कर रहा है। योजना की जीआईएस मैपिंग की जा रही है।

आईडीए अफसरों ने गत दिनों राजस्व विभाग के अफसरों के साथ खसरा शीट पर जमीनों की स्थिति देखी। जीआईएस मैपिंग से योजना के सभी भागों की जमीनों की वस्तुस्थिति सामने आ सकेगी। निजी विकास की अनुमतियों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। राजस्व अमला व आईडीए अफसर मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। इसमें कई जमीनों पर अस्थाई शोड बना कर जमीन मालिक काम कर रहे हैं। हालांकि, जमीनों के खसरे व बंटोकन में बहुत सी मुश्किलें हैं, राजस्व विभाग से भी मदद के लिए आरआई व पटवारी को मौके के नजरी नक्शों के साथ बुलाकर बैठक की जा रही है। भौतिक सत्यापन

एनओसी की भी कर रहे जांच

आईडीए अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा व सीईओ आरपी अहिरवार ने भू-अर्जन व योजना शाखा से जमीनों को छोड़ने के लिए जारी एनओसी के रिकार्ड भी खंगालने के लिए कहा। इससे इसका पता चल सकेगा कि कानूनी तौर पर विवादित जमीनों पर तो निजी विकास की एनओसी जारी नहीं है। इसके अलावा मौके पर यदि जमीन पर किसी तरह का निर्माण मिल रहा है तो उसे भी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा है।

की रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, जिसके अनुसार कार्रवाई चल रही है। इसमें कुछ समय और लगेगा। अफसरों ने योजना को गूगल मैप पर भी मार्क करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य भी शुरू हो गया है। योजना के एक-एक खसरे की स्थिति देखी जा रही है। याचिकाकर्ताओं व अन्य जमीन मालिकों की जमीनों की स्थिति को भी मार्क कर रहे हैं। इससे तकनीकी रूप से भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ऑटो रिक्शा चालक  
महासंघ ने रेलवे पीआरओ  
को ज्ञापन सौंपा

## रेलवे स्टेशन पार्किंग पर मनमानी वसूली का विरोध

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पिक एंड ड्रॉप और रेलवे परिसर के बाहर से पार्किंग का मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है। इससे नाराज इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने रेलवे पीआरओ को ज्ञापन सौंपा।

इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ अध्यक्ष राजेश बिड़कर ने बताया कि रेलवे ने ठेकेदार के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर सशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की है। ठेका पद्धति के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपने साथ लगाए कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन, यूनिफॉर्म, नेमप्लेट, शुल्क की रसीद देना अनिवार्य होता है। इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ठेकेदार के विरुद्ध

आर्थिक जुर्माना करते हुए ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन रेलवे परिसर के बाहर ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की मनमानी के चलते लगातार वाहन मालिक अवैध वसूली से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 सालों से पार्किंग पर मनमानी तरीके से वसूली हो रही है। इसकी कई बार जीआरपी थाने पर इनकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाराज ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने पीआरओ खेमराज मीणा को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। रेलवे पीआरओ ने व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। महासंघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रेलवे परिसर के बाहर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं रोकी गई तो हजारों ऑटो बंद कर दिए जाएंगे।

अधिकारियों को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश

# विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग पर तुरंत मदद के लिए बनेगी सड़क

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एयरपोर्ट पर कभी किसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति में तुरंत सहायता पहुंच सके, इसलिए सड़क बनाने के लिए जमीन की खोज प्रशासन कर रहा है। सड़क धार रोड की ओर बनना है जिसके लिए पिछले दिनों सलाहकार समिति की बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने निर्देश दिया था।

ये मामला काफी पहले तय था, लेकिन जमीन तय नहीं थी। अब समिति की बैठक में ये मामला उठने से इसमें तेजी आई है। जमीन आवंटन नहीं होने से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सलाहकार समिति की बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन

उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब प्रशासन जमीन की खोज कर रहा है। इंदौर एयरपोर्ट के 2754 मीटर लंबे रनवे पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान अभी अंदर की तरफ से ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचने का रास्ता है।

यह रास्ता पुराने टर्मिनल के पास से है। जबकि रनवे के अंतिम छोर धार रोड से भी आपातकालीन प्रवेश द्वार होना चाहिए, ताकि तुरंत बाहरी तरफ से भी सहायता पहुंच सके। इसको बनाने के लिए लंबे समय से कयावद चल रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन को जमीन का आवंटन नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि जमीन आवंटन के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।



प्रशासन करेगा नपती

धार रोड की तरफ से बनने वाली आपातकालीन सड़क के निर्माण के लिए जल्द ही प्रशासन जमीन की नपती करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों से इसके लिए संपर्क किया है। सड़क निर्माण में आने वाली जमीन में अधिकांश जमीन कांकड़ की है। इसके अलावा कुछ जमीन का हिस्सा निजी भूस्वामी का भी आ रहा है और इसमें फूलों की खेती की जाती है।

दोनों तरफ से पहुंच सकेगी सहायता

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान तुरंत सहायता पहुंच सके इसके लिए रनवे के दोनों तरफ आपातकालीन द्वार रहते हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर धार रोड की तरफ से अब तक आपातकालीन द्वार के लिए राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराना है। जमीन का आवंटन पूरा होने के बाद दोनों तरफ से प्रवेश हो सकेगा।



## क्रेडिट कार्डधारक का बैंक खाता सीज करवाया, संपत्ति की कुर्की की धमकी

# आईसीआईसीआई बैंक वालों की तानाशाही...

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

### इंदौर में पहला मामला

जिन लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है या लेने वाले हैं वे सावधान हो जाएं। बैंक ने अपने एक क्रेडिट कार्डधारक के मात्र 30 हजार रुपए न भरने के मामले में न केवल उसका अन्य बैंक में खाता सीज करवा दिया, बल्कि उसका फ्लैट और अन्य संपत्ति भी कुर्क करने की धमकी दे रहे हैं। बैंकवाले प्रशासन से भी बड़े हो गए हैं और तहसीलदार के आदेश को भी कुछ नहीं मान रहे हैं।

मामला नंदानगर निवासी आशीष जादौन का है। पेशे से पत्रकार आशीष ने आईसीआईसीआई बैंक से दो साल पहले क्रेडिट कार्ड लिया था। इसकी लिमिट 42 हजार रुपए थी। बैंक में उन्होंने नियमित पैसा जमा किया, लेकिन बैंक ने पूरा पैसा ब्याज में डाल दिया और मूल राशि बकाया निकाल दी। राशि को बैंक ने बढ़ाकर 1 लाख 10 हजार 578 रुपए कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। बैंक ने तीन माह पूर्व नोटिस भेजा जिसमें इस राशि को भरने के लिए कहा गया था और लोक अदालत में बुलवाया। राशि देख जादौन चौंके क्योंकि उनके कार्ड में मात्र 35 हजार रुपए ही बकाया थे और वे नियमित राशि की अदायगी भी कर रहे थे।

लोक अदालत में उन्होंने तहसीलदार लोकेश आहूजा से मिलने की कोशिश की, लेकिन बैंक के मनीष गौर, नितिन गौर व अनवर खान ने उन्हें तहसीलदार से मिलने नहीं दिया। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के इन कर्मचारियों ने उनके एचडीएफसी बैंक की मांगलिया शाखा में खाता क्र. 50100354308031 को फ्रीज करवा दिया। खाते में 1 लाख 10 हजार 395 रुपए जमा हैं। जादौन ने बताया कि खाते से उनके द्वारा सुपर कॉरिडोर की हाईलिंक सिटी में लिए गए फ्लैट की किश्त अदा की जा रही थी जो बैंक की तानाशाही के कारण भर नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के इन कर्मचारियों ने ये धमकी भी दी है कि इस फ्लैट को कुर्क करवाएंगे और जो उनकी परिवारिक अन्य संपत्तियां हैं वो भी कुर्क करवाएंगे।

इंदौर के बैंकिंग इतिहास में क्रेडिट कार्ड के एवज में किसी बैंक की इस तानाशाही का ये पहला मामला है। बैंक के कुछ और पीड़ित भी मिले जिनके साथ बैंक में इस तरह तानाशाही और धोखाधड़ी की गई है।

### प्रशासन से भी बड़े हो गए बैंक वाले

मामले में पीड़ित आशीष जादौन कल तहसीलदार लोकेश आहूजा से मिले और उन्हें पूरा मामला बताया। उन्होंने मामले का निपटारा करने के लिए 50 हजार रुपए पर सैटलमेंट करवाया और 25-25 हजार रुपए के दो चेक दिलवा दिए, लेकिन उनके कहने के बावजूद एचडीएफसी बैंक ने शुक्रवार शाम तक खाता चालू नहीं किया। इस दौरान मौजूद आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी भी मौजूद थे जिन्होंने खाता चालू कराने से इंकार कर दिया और क्रेडिट कार्ड धारक आशीष जादौन को धमकाया कि वे खाते से पूरा पैसा निकाल लेंगे और खाता फ्रीज ही रहने देंगे। ये भी धमकी दी कि उनके सुपर कॉरिडोर स्थित फ्लैट को भी कुर्क कर लेंगे। बैंक की महावीर एजेंसी (रेफेल टावर पलासिया) के मनीष गौर ने 98260-14421 से फोन पर कहा कि आपकी संपत्ति की कुर्की का वारंट निकाल दिया है। पूरे प्रदेश में जहां भी आपकी संपत्ति होगी, वो कुर्क कर ली जाएगी। यानी मात्र 35000 रुपए के लिए आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्डधारक आशीष जादौन की लाखों की संपत्ति को हथियाने का षड्यंत्र रच रहा है।



संपत्ति की कुर्की का वारंट निकाल दिया है। पूरे प्रदेश में जहां भी आपकी संपत्ति होगी, वो कुर्क कर ली जाएगी। यानी मात्र 35000 रुपए के लिए आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्डधारक आशीष जादौन की लाखों की संपत्ति को हथियाने का षड्यंत्र रच रहा है।

### बचकर रहें आईसीआईसीआई बैंक से

आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के साथ किस तरह का बर्ताव करता है, ये उसका एक उदाहरण है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो इस बैंक से कोई व्यवहार न करें। क्रेडिट कार्ड लेने के पहले अच्छी तरह सोच-समझ लें। कहीं ऐसा न हो कि बैंककर्म आपकी संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र करें।  
आशीष जादौन, पीड़ित

### कई वर्षों से पैसा जमा नहीं किया

हम कोई ज्यादाती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों से पैसा जमा नहीं किया है। हम न बैंक खाता चालू होने देंगे और न कोई और रियायत देंगे। उनके फ्लैट की कुर्की भी की जाएगी। इसके बाद अन्य जो भी संपत्तियां होंगी, वो कुर्क की जाएगी। बैंक अपना पैसा तो वसूलेगा ही।  
नितिन गौर, बैंक की वसूली महावीर एजेंसी का कर्मचारी

## मामला चापड़ा में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कौन सच्चा... कौन झूठा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राज्यसभा में चापड़ा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव मिलने से इंकार करने के बाद सवाल उठ रहा है कि पूर्व में तमाम अधिकारी और नेता जो बयानबाजी करते रहे वो क्या था? आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा?

उल्लेखनीय है कि सिंधिया ने गत सोमवार को राज्यसभा में साफ शब्दों में कहा कि इंदौर से करीब 45 किमी दूर चापड़ा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य शासन के उद्योग विभाग की ओर से नहीं मिला है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने से इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। आश्चर्य की बात है कि चापड़ा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हल्ला कई महीनों से चल रहा है। उद्योग सचिव संजय शुक्ला की दिल्ली में एएआई के चैयरमैन संजीव कुमार व विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। और तो और, यहां का फिजिबिलिटी सर्वे हो चुका है जिस पर उद्योग विभाग 45 लाख रुपए खर्च कर चुका है।

चापड़ा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसमें कार्गो होगा, बनाने की घोषणा के बाद आसपास की जमीनें इंदौर से लेकर देशभर के अनेक लोगों ने खरीदना शुरू कर दी और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां हो चुका है। इन सबका क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये है कि इंदौर में एमपीआईडीसी के एमडी मनीषसिंह कह चुके हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 5000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काफी कुछ तो सरकारी जमीन है लेकिन बाकी कुछ किसानों की जमीन है जिन्हें मुआवजा देकर जमीन ली जाएगी। उनके अलावा, उद्योगमंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव भी कह चुके हैं कि चापड़ा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बनेगा और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे उद्योगपतियों को माल भेजने-लाने में बहुत आसानी हो जाएगी। सिंधिया के जवाब के बाद दत्तीगांव ने ये भी कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुके हैं और फाइनल प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब



### दोनों ओर बन गए गुट

सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर दो गुट बन गए हैं। एक गुट में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उद्योगमंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव और एमपीआईडीसी के एमडी मनीषसिंह हैं तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसीराम सिलावट हैं।

### जगह पर भी अस्पष्टता

चापड़ा में हाटपीपल्या और देवास के बीच करीब 25 हजार एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट बनना तय हुआ था। पहले चरण में 10 हजार एकड़ जमीन पर प्लानिंग भी शुरू हो चुकी थी। हालांकि मनीषसिंह 5 हजार एकड़ की ही बात कर रहे हैं। चापड़ा की जमीन इसलिए तय की गई थी कि यहां जमीन आसानी से उपलब्ध थी। कुछ सरकारी जमीन भी है। प्रदेश की 40 प्रतिशत इंडस्ट्री इंदौर, देवास, पीथमपुर में हैं। यह डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर) के नजदीक है। राज्य शासन का हाईवे प्रोजेक्ट भी यहीं से गुजरने वाला है। शाजापुर से देवास एबी रोड, इंदौर-भोपाल रोड, भोपाल-जयपुर रोड, नरसिंहगढ़ को सड़कों से भी आपस में जोड़ने का प्लान भी तैयार हो चुका है।

सवाल ये उठता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? जब राज्य शासन और एमपीआईडीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में कई कदम आगे बढ़ चुकी है तो फिर संसद में सिंधिया इंकार कैसे कर सकते हैं?

### नोटिस देकर मामले को कर दिया रफादफा

## नक्शा पास नहीं कराया, अवैध निर्माण पर भवन निरीक्षक मेहरबान

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

जोन 11 वार्ड 60 में निर्माणकर्ता ने भवन निरीक्षक की मेहरबानी से अवैध निर्माण कर लिया। निर्माण की जानकारी मिलते ही भवन निरीक्षक ने नोटिस जारी किया। लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

नगर निगम के जोन कार्यालय पर पदस्थ भवन निरीक्षकों की अफसरशाही के चलते जोन 11 के विभिन्न वार्डों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। अधिकतर निर्माण भवन अनुज्ञा की अनदेखी कर किए गए हैं। इन निर्माणों की जानकारी भवन निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया को मिलने के बाद औपचारिकता में नोटिस जारी किए जाकर मामले

को कागजों में दबा दिया गया। ऐसे ही मामले का खुलासा जनहित में खुलासा फर्स्ट कर रहा है। जोन 11 वार्ड 60 में 35 रानीपुरा नई बागड़ में भूखंड क्रमांक 46 पर मोहम्मद सईद पिता मोहम्मद इस्माइल व अन्य के द्वारा निर्माण किया गया। इसके लिए निगम से नया नक्शा पास नहीं कराया गया। लेकिन निर्माणकर्ताओं ने नगर निगम की अनुमति लिए बिना ही बिल्डिंग बना ली। इसकी शिकायत होने पर भवन निरीक्षक ने नोटिस जारी किया। इसके बाद महीनों बीत गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब जब बिल्डिंग तैयार हो गई है तो भी इसकी शिकायतों को भवन निरीक्षक अनदेखा कर रहे हैं। इस मामले में भवन निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया से जानकारी लेनी चाही लेकिन संपर्क नहीं हो सका।



### तलघर का निर्माण

नगर निगम जोन 11 वार्ड 60 में भवन स्वामी ने पुराने मकान को तोड़कर नगर निगम से बिना अनुमति लिए नया निर्माण कर तलघर और दुकान बना ली। नियम विरुद्ध किए गए इस निर्माण में भवन निरीक्षक भदौरिया की मिलीभगत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। भवन निरीक्षक द्वारा निर्माणकर्ता को दो नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो निर्माणकर्ता के खिलाफ शिकायत हुई तो उसने मकान व दुकानें बेचने का प्रयास शुरू कर दिया है।



आप ने उठाया महु आदिवासी हत्याकांड एवं तरण पुष्कर जिम की लीज का मामला

## मुख्यमंत्री से की त्यागपत्र की मांग



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. पीयूष जोशी ने महु के डोंगरगांव में हुए आदिवासी हत्याकांड के बारे में सरकार की आलोचना की। जोशी ने कहा कि जहां एक तरफ अपराधी एवं नशा माफिया बेखौफ हैं, वहीं पुलिस दूसरी तरफ निर्दोष आदिवासियों पर गोली चला रही है।

ये हत्या मंदसौर गोलीचालन की याद दिलाती है, जिसमें छह किसानों की मृत्यु हुई थी। इससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के लिए आदिवासियों और किसानों के जीवन का क्या मूल्य है। आम आदमी पार्टी इस हत्याकांड की घोर भर्त्सना करती है और मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग करती है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डोंगरगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की।

एक अन्य मामले में लक्ष्मणसिंह चौहान तरण पुष्कर प्रांगण में स्थित जिम्नेशियम की लीज में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए जोशी ने कहा कि मात्र एक हजार रुपए प्रतिमाह के किराए पर एक बड़ा हॉल जिम संचालन के लिए दिया गया है और बीस वर्ष से भी अधिक समय से इस लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया है। यह हॉल इन शर्तों के साथ आवंटित किया गया था कि संचालक कोई लाभ उपरोक्त गतिविधि से नहीं कमाएंगे।

वास्तविकता में इस जिम के संचालन से लाखों रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित की जा रही है। जिम संचालक के क्षेत्रीय विधायक के नजदीकी होने की बात भी सामने आ रही है। इस तरह से ये मामला प्रथम दृष्टया प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रश्न एवं भ्रष्टाचार का बनता है। आम आदमी पार्टी इस मामले की जांच की मांग करती है एवं सत्य पाए जाने पर शासकीय खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की मांग करती है।

## भाजपा के लिए मुसीबत बना गोलीकांड

# गरमाई आदिवासी सियासत कांग्रेस ने बना लिया मुद्दा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

महु के डोंगरगांव में हुई आदिवासी युवती व युवक की मौत से सियासत गरमा गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी के कारण सत्ता से बाहर हुई भाजपा सरकार इस बार उन्हें रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और ऐसे में ये कांड नई मुसीबत बन गया है।

कांग्रेस भाजपा की इस कमजोर नस को पकड़ चुकी है और अब वे अपने खो रहे आदिवासी वोट बैंक को वापस अपने पास लाने के लिए जी-जान से जुटी हैं। प्रदेश में कुल पौने तीन करोड़ आदिवासी हैं और 68 सीटें आदिवासी प्रभावित हैं। इनमें से 30 से अधिक सीटें अकेले मालवा-निमाड में ही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने भाजपा सरकार से इसलिए कत्ती काट ली थी क्योंकि वो ये मान रहे थे कि भाजपा सरकार उनकी जमीनें छीन रही है और उनकी संस्कृति पर अतिक्रमण कर रही हैं।

इस बात का मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए वे आदिवासियों को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यातिथ्य में शहीद बिरसा मुंडा जयंती मनाई और इस दिन (15 नवंबर) को अवकाश भी घोषित किया।

फिर इस वर्ष 4 जनवरी को मालवा के आदिवासी शहीद टंट्या मामा की जयंती भी मनाई। इंदौर से जन्मस्थली कालाकुंड तक यात्रा भी निकाली। इसके अलावा, आदिवासियों को भू-अधिकार पट्टे देने का कानून भी बनाया। सब जानते हैं कि प्रदेश में सत्ता मालवा-निमाड की वजह से मिलती है, इसलिए यहां मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा आदिवासियों को सहेजने की कोशिश की, लेकिन दो दिन पूर्व महु के डोंगरगांव की घटना ने मुख्यमंत्री की इन कोशिशों को पलीता लगा दिया है।



कमलनाथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे

कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जानते हैं कि आदिवासी वोट बैंक भाजपा सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस आदिवासी युवक-युवती की मौत को भुनाने की कोशिश में लग गई है। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंदसिंह ने ये मामला पुरजोर तरीके से उठाया। कुल मिलाकर ये कि आदिवासी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा की कोशिशों को इस घटना ने झटका दिया है और कांग्रेस इस मुद्दे को गर्म करके आदिवासियों का रुख एक बार फिर अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है।

## कमलनाथ भी पहुंचे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज आदिवासी युवक-युवती की मौत के मामले में महु पहुंचे। कमलनाथ के साथ विजयलक्ष्मी साधो, बाला बच्चन समेत कई पदाधिकारी थे। वे 11 बजे महु के ग्राम माधवपुरा पहुंचने वाले थे लेकिन समय से पहले ही उन्होंने महु पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद वे महेश्वर तहसील के ग्राम वासली कुंडिया पहुंचे।



## महिलाओं को साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक



खुलासा फर्स्ट... इंदौर। समाज सेवी संस्था विश्वास द्वारा आरएनटी मार्ग स्थित श्रीनाथ एवेन्यू में वर्तमान स्थिति को देखते हुए समाज में होने वाले साइबर अपराध से बचाव के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साइबर क्राइम विभाग से एसीपी सौम्या अग्रवाल, टीआई राधा जामोद, एसआई शुभम ठक्कर महिलाओं को बहुत ही कलात्मक रूप से साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में एडवोकेट शत्रो खान ने महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागृत होकर सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। डायरेक्टर सुषमा ने उपस्थित अधिकारियों का पौधा देखकर स्वागत किया।

## 10 किमी घट जाएगी खंडवा की दूरी

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

भेरुघाट के पास पहाड़ काटकर बनाई जा रही दो सुरंगों का निर्माण अगस्त अंत तक पूरा हो जाएगा जिसके बाद इंदौर से खंडवा की दूरी 10 किमी घट जाएगी। ये सुरंग इंदौर एदलाबाद नेशनल हाईवे का हिस्सा हैं।

सुरंगों की कुल लंबाई 780 मीटर है। इसमें से करीब 170 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है। शेष खुदाई भी अगले पांच महीनों में पूरी हो जाएगी। जिस जगह सुरंग खोदी जा रही है वो इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे पर भेरुघाट शुरू होने के ठीक पहले की है जहां पहाड़ काटे जा रहे हैं।

ये सुरंग इसी हाईवे का हिस्सा हैं। उल्लेखनीय है कि 216 किमी लंबे इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे का काम 5 चरणों में चल रहा है। तय शैड्यूल के मुताबिक, इंदौर से खंडवा तक फोरलेन का काम दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। घाट सेक्शन और कर्व के कटाव से 130 किमी की दूरी घटकर 120 किमी का रह जाएगी। जिससे खंडवा से इंदौर लगभग दो-ढाई घंटे में पहुंचा जा सकेगा। क्योंकि सड़क की अधिकतम गति सीमा 80 से 100 किमी प्रतिघंटा रहेगी।

## सिख समाज के युवाओं ने भाजपा नगर अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर की मांग

# गुंडागर्दी करने वाले कार्यकर्ताओं पर हो संगठनात्मक कार्रवाई

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

सिख यूथ एसोसिएशन ऑफ इंदौर के अध्यक्ष सच सलूजा ने एक प्रेस बयान में जानकारी दी कि सिख संगत, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले समाज के युवा सतबीर सिंह (सनी टुटेजा), जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता व कार्यकर्ता हैं, उन्हें भाजपा नेताओं और उनके गुणों द्वारा सरेआम चाकू अड़ाकर धमकाया गया कि तुम लोगों की नेतागिरी खत्म करो, अब हम इस वार्ड की राजनीति करेंगे।

उल्लेखनीय है की सनी टुटेजा उक्त

वार्ड में सक्रिय व टिकट के प्रबल दावेदार थे। पहले भी कई मौकों पर भाजपा संगठन द्वारा सिख समाज को दरकिनार किया जा चुका है, चाहे वो निगम, बोर्ड, प्राधिकरण या अन्य कोई भी सरकारी नियुक्ति का मामला हो भाजपा की प्रदेश सरकार और संगठन ने किसी भी प्रादेशिक या संभंग स्तर पर सरकारी नियुक्तियों में सिख समाज को षड्यंत्र रचकर स्थान नहीं दिया। सलूजा ने कहा कि हम सब सामाजिक रूप से संगठित हैं, चाहे कोई व्यक्ति, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो जब क्रिम की आन, बान और शान पर आंच आएगी तो इसका मुहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

## भाजपा नगर अध्यक्ष को दिया ज्ञापन

भाजपा नेता सनी टुटेजा के साथ हुए हादसे के संबंध में सिख समाज के पचास से अधिक युवाओं ने कल भाजपा कार्यालय दीनदयाल भवन पहुंचकर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे को ज्ञापन सौंपा। इसमें भाजपा नेता सनी टुटेजा ने कहा कि मैं और मेरा परिवार कई दशकों से भाजपा की सेवा में अग्रसर रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बड़े ही दुःख के साथ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 16 मार्च 2023 को त्रिवेणी कॉलोनी बगीचे में सुबह 10 बजे संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें मेरी लिए पर एकलव्य सिंह गौड़ के कार्यकर्ता ने अपशब्द का प्रयोग किया, साथ ही बगीचे के बाहर मिलने की धमकी दी। इस पर क्षेत्र की पार्षद ने उन्हें

समझाइश देते हुए कहा कि इस प्रकार की शब्दावली भाजपा में नहीं चलती है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें और शांति बनाए रखें। उसके कुछ देर बाद बैठक खत्म हुई और मैं घर जाने लगा तो बगीचे के बाहर एकलव्य गौड़ के समर्थकों ने मुझसे गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि, अगर तुझे विधानसभा क्षेत्र में रहना है और भाजपा का काम करना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा और ये जो मेरे हाथ में तू चाकू देख रहा है इससे एकलव्य भैया के विधायक बनने के बाद तेरी हत्या कर देंगे। आदरणीय में संगठन का कार्य करना चाहता हूँ कृपया आप गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करें।



आज खजराना गणेश के शृंगार दर्शन



खजराना में भगवान गणेश का आज सुबह अभिषेक, पूजन कर आकर्षक शृंगार किया गया। भगवान को फूलों से सजाकर भोग लगाया गया।

आज बगलामुखी माता के शृंगार दर्शन



नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता का आज सुबह पूजन कर आकर्षक शृंगार किया गया। आरती कर मां को प्रसाद का भोग लगाया गया।

आज महाकाल के भस्मारती शृंगार दर्शन



भस्मारती के दौरान आज सुबह भगवान महाकाल का भांग, सूखे मेवों और फूलों से आकर्षक शृंगार कर भोग अर्पित किया गया।

# प्रभातफेरी में दिया शोभायात्रा में शामिल होने का निमंत्रण

## बाबा की पालकी का पूजन कर लिया आशीर्वाद



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। श्री केंद्रीय साईं सेवा समिति धार्मिक एवं मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा कल बंगाली चौराहा स्थित प्रीति नगर से साईं बाबा की प्रभातफेरी व पालकी यात्रा निकाली। प्रभातफेरी में भगवान की वेशभूषा में शामिल राधा-कृष्ण बने भक्तों ने नृत्य की प्रस्तुति से सभी का ध्यानाकर्षण किया। वहीं प्रीति नगर, अलकापुरी, चेतन नगर, सूरज नगर व बंगाली चौराहा क्षेत्र में निकाली गई प्रभातफेरी में मातृशक्तियों ने बाबा की पालकी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। प्रभातफेरी आयोजक बाला गावड़े और मोहन पालीवाल ने बताया कि प्रभातफेरी व पालकी यात्रा आसपास के क्षेत्रों में निकली, जहां भक्तों ने रंगोली व द्वार पर दीप रोशन कर पालकी की अगवानी की, साथ ही पुष्पवर्षा



कर साईं भक्तों का स्वागत भी किया। प्रभातफेरी में दादू महाराज, विनीता पाठक, जगमोहन वर्मा, किशोर दोरकर, रवि वर्मा, आलोक खादीवाला, प्रदीप यादव, समीर जोशी, दिलीप बौरासी, दिलीप ठाकुर, मुकेश शर्मा, पिकी भाटिया, संतोष भुसारी, नीरज यादव, सागर यादव उपस्थित थे।

## रंगोली सजाकर की बाबा की पालकी की अगवानी

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। श्री इंदौर शहर साईं भक्त सेवा समिति द्वारा कल साईं बाबा की प्रभातफेरी एयरपोर्ट रोड स्थित वैष्णोदेवी नगर से निकाली गई। प्रभातफेरी आयोजक राजा यादव और दिनेश सिसौदिया ने बताया कि प्रभातफेरी व पालकी यात्रा की शुरुआत साईं बाबा की महाआरती के साथ हुई। आरती के बाद बाबा की पालकी वैष्णव नगर की सभी कॉलोनियों व मोहल्लों में निकाली गई, जहां रहवासियों ने रंगोली, दीप रोशन कर बाबा की पालकी की अगवानी की। वहीं घरों पर आकर्षक विद्युत्सज्जा भी की गई। जगह-जगह पालकी का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं श्री इंदौर शहर साईं



भक्त सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे हर आंगन में हो एक सकोरा अभियान से जुड़ने के लिए भी नगरवासियों को प्रेरित किया गया। प्रभातफेरी में भजन गायक श्रीराम पाटीदार, गोपाल शर्मा, विपिन कसेरा, वीरजी, मंजुला राजेंद्र शर्मा और अनिल परिहार ने बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी।

## दिगांबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक चारित्र के 140 सदस्य तीर्थ यात्रा कर लौटे



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

दिगांबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक चारित्र के तत्वावधान में ग्रुप के 140 सदस्यों ने जैन धर्म के तीर्थकरों की जन्मभूमि कोशाम्बी (प्रभासगिरि) प्रयागराज, अयोध्या एवं बनारस की यात्रा की। सभी तीर्थयात्रियों ने इस दौरान जैन तीर्थ स्थलों पर भक्तिभाव से पूजा-अर्चना की और अयोध्या में गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माताजी का शुभाशीष भी प्राप्त किया।

ग्रुप अध्यक्ष देवेन्द्र सोगानी, सचिव ऋषभ पाटनी एवं ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष संघपति महेन्द्र-मीना गदिया ने बताया कि बताया कि 11 मार्च को इंदौर से प्रस्थित हुए श्रद्धालुओं का मार्ग में

उज्जैन, टीकमगढ़ और बनारस सहित विभिन्न शहरों में स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान विकास-वर्षा जैन, कमल-आशा जैन, सुरेश सोनी, हेमंत-प्रभा गंगवाल, विजय-कविता जैन, मेघकुमार-निर्मला जैन ने संयोजक के रूप में सभी व्यवस्थाएं पूरी की। यात्रा के शुरुवार को इंदौर आगमन पर सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी, महामंत्री सुशील पंड्या, कमलेश कासलीवाल, अमित कासलीवाल, रमेश बड़जात्या आदि ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। संघपति महेन्द्र-मीना गदिया का सम्मान भी किया गया। अगली यात्रा कश्मीर की होगी। महावीर जयंती के कार्यक्रमों का विवरण भी दिया गया। आभार भूपेन्द्र बड़जात्या ने माना।

## 12 से 16 अप्रैल तक होगा पांच दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव

### खुलासा फर्स्ट... इंदौर

गायत्री परिवार ट्रस्ट कनाड़िया द्वारा पांच दिवसीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 12 से 16 अप्रैल तक कनाड़िया स्थित गुरुधाम गायत्री शक्तिपीठ में किया जाएगा। इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के पूर्व भूमिपूजन कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे होगा। विद्वान पंडितों के सान्निध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमिपूजन की सभी विधियां की जाएंगी।

अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज एवं गायत्री परिवार कनाड़िया ट्रस्ट प्रमुख पं. शंकरलाल शर्मा और सिद्धार्थ सराठे ने बताया कि भूमिपूजन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शांतिकुंज हरिद्वार के मेवालाल पाटीदार उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्य अतिथि तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, सीमा सोलंकी सहित गायत्री परिवार से जुड़े भक्त शामिल होंगे। पांच दिवसीय कार्यक्रम में कलश यात्रा, संगीतमय प्रज्ञापुराण कथा, सामूहिक ध्यान साधना व योग, देव पूजन, महायज्ञ, युवा संगोष्ठी, युग गीत, ध्यान, योग यज्ञ संस्कार, नारी सशक्तिकरण संवाद, दंपति शिविर, पुंसवन, अन्न प्रासन, नामकरण, मुंड, विद्या आरम्भ, यज्ञोपवीत, दीक्षा आदि संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे।



संपादकीय



पेपर लीक होना होनहार  
बच्चों के साथ खिलवाड़

वर्तमान में एमपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं की परीक्षा चल रही है। इस दौरान आए दिन मोबाइल पर पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पेपर लीक होने से होनहार बच्चे जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। पेपर वायरल होने से पूरे सिस्टम पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मामला विधानसभा तक पहुंच गया। एमपी बोर्ड का दावा है कि पेपर छात्रों को बंटने से पहले तक चेयरमैन, सेक्रेटरी भी इसे नहीं देख सकते। हकीकत यह है कि परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो रहे हैं। टीचर सलेक्शन और पेपर सेट करने की प्रक्रिया सात महीने पहले (अगस्त) में शुरू हो जाती है। जिस दिन पेपर शुरू होता है उसके आधा घंटे पहले सेंटर पर सीलबंद लिफाफा खोला जाता है। इस पूरी चैनल में सबसे अहम किरदार केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष का होता है। यही वजह है कि विभाग द्वारा निलंबित किए गए 9 लोगों में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष ही शामिल हैं। हर लेवल पर पूरी गोपनीयता रखी जाती है। 16 साल पहले कुछ जिलों में केंद्र अध्यक्ष द्वारा गलती से बाद में होने वाला पेपर पहले बांट दिया गया था। इसके बाद बड़ा बदलाव किया गया। इसके तहत बोर्ड के बजाय जिलों में रिजर्व पेपर के सेट रखवाने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद पेपर लीक होने पर हैरत होती है। अगस्त में संभाग स्तर पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। हर संभाग से विषयवार 2-2, 3-3 शिक्षकों को पेपर तैयार करने मॉडरेटर के तौर पर चुना जाता है। अक्टूबर में पेपर बनाने इन्हें भोपाल बुलाया जाता है। ये यहीं बोर्ड के रेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। ये शिक्षक हिंदी और इंग्लिश वर्जन के पेपर के साथ-साथ मॉडल आंसर भी तैयार करते हैं। यह काम गोपनीय कक्ष में होता है। मॉडरेटर पेपर के पांच सेट तैयार करते हैं। मॉडरेटर द्वारा तैयार पेपर को सेट करने विषय विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं। ये गलतियां सुधारकर सील बंद लिफाफे में पेपर पैक कर देते हैं। इन पांच में से कोई भी सिर्फ दो सेट प्रिंट के लिए प्रिंटर को भेजे जाते हैं। ये पेपर बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी नहीं देख सकते। नवंबर में पेपर छपकर तैयार हो जाते हैं। जिस दिन पेपर होते हैं उससे तीन या चार दिन पहले सील बंद लिफाफे में जिला स्तर पर चुनी गई समन्वयक संस्था (भोपाल में मॉडल स्कूल) में बोर्ड के अधिकारी ये बॉक्स लेकर पहुंचते हैं। इसी संस्था से पेपर केंद्राध्यक्ष को दिए जाते हैं। केंद्राध्यक्ष ये पेपर संबंधित थाने ले जाकर थाने के लॉकर में रखते हैं। इसकी थाने में एंट्री होती है। जिस दिन पेपर होता है उसके डेढ़ घंटे पहले केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, डीईओ द्वारा नियुक्त शिक्षक एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में थाने के लॉकर से बॉक्स का ताला खोलकर पेपर के बंध निकालते हैं। थाने में एंट्री होती है। इस दौरान डीईओ प्रतिनिधि, कलेक्टर प्रतिनिधि एवं संबंधित थाना प्रभारी के दस्तखत होते हैं। सेंटर पर पेपर शुरू होने के आधा घंटे पहले केंद्राध्यक्ष और एक परीक्षार्थी के दस्तखत होने के बाद ही पेपर के पैकेट खोले जाते हैं। सेंटर पर पेपर शुरू होने के तय समय से पांच मिनट पहले ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक द्वारा पेपर परीक्षार्थियों को बांटे जाते हैं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी पेपर लीक होना गंभीर विषय है। यह बच्चों के भविष्य निर्धारण का सवाल है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उसके लिए पेपर लीक करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए।



हेमंत पाल  
(वरिष्ठ पत्रकार)

देश के फिल्म इतिहास में पिछले दिनों जो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। हमारे यहां बनी एक शॉर्ट फिल्म और एक फिल्म के गाने को ओरिजनल सांग कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड से नवाजा गया। इस तरह भारत ने दो ऑस्कर अवॉर्ड्स अपने नाम किए। दक्षिण की फिल्म 'आरआरआर' के गाने 'नाटू-नाटू' ने बेस्ट ओरिजनल सांग कैटेगरी का अवॉर्ड जीता। दूसरा अवॉर्ड शॉर्ट फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को मिला, जिसने बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बाजी मारी। भारतीय फिल्मों को ये सम्मान पहली बार मिले। इससे पहले भी 'गांधी' और 'स्लमडॉग मिलिनियर' के कंधे पर चढ़कर कई ऑस्कर भारत आए, पर वो विदेशी फिल्मों में थे। भारत के नाम पहला ऑस्कर अवॉर्ड 1983 में मिला था। यह अवॉर्ड उस साल रिलीज हुई फिल्म 'गांधी' के लिए हासिल हुआ था इस फिल्म में भानु अथैया ने जॉन मोलो के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, जिसके लिए उन्हें यह अवॉर्ड मिला।

देखा जाए तो 'ऑस्कर 2023' में भारत की और से तीन फिल्मों ने दावेदारी पेश की थी। इनमें पहली थी आरआरआर, दूसरी द एलिफेंट व्हिस्परर्स और तीसरी ऑल दैट व्हीथ्स थी। ऑल दैट व्हीथ्स को सफलता हासिल नहीं हुई, जबकि 'आरआरआर' के ओरिजनल सांग और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। फिल्म 'आरआरआर' के गाने 'नाटू-नाटू' ने तो ऑस्कर 2023 में जैसे इतिहास रच दिया। एसएस राजामौली की इस फिल्म के इस गाने ने कड़े मुकाबले में अवॉर्ड अपने नाम किया।

इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को हराकर 'नाटू-नाटू' ने बाजी जीती। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना भी है। पिछले साल अमेरिका में फिल्म की रिलीज के बाद 'आरआरआर' सॉन्ग 'नाटू-नाटू' ग्लोबल सेंसेशन बन गया। इस सांग को एमएम किरवानी ने कम्पोज किया और चंद्र बोस ने इसे लिखा है। फिल्म में इस गाने को जूनियर एन्टीआर और रामचरण पर फिल्माया है। ये गाना हिंदी में 'नाचो

इस बार लगा कि हम भी  
'ऑस्कर' के लायक!

नाचो, तमिल में 'नट्टू कूथु' और कन्नड़ में 'हल्ली नातु' के रूप में भी रिलीज किया गया। इससे पहले 'नाटू-नाटू' ने बेस्ट सांग के लिए क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड भी जीता था। संगीतकार एमएम किरवानी ने इस गाने को सुरों से भरने में जान फूंक दी। उनका पूरा नाम कोडुरी मारकथमणि किरवानी है और वे रिश्ते में 'आरआरआर' के डायरेक्टर एसएस राजामौली के चचेरे भाई हैं। उनकी पत्नी एमएम श्रीवल्ली प्रोड्यूसर हैं। वे राजामौली की पत्नी रमा की बड़ी बहन हैं। राजामौली और किरवानी परिवार का फिल्मी दुनिया से गहरा ताल्लुक है। सिर्फ वे ही नहीं उनके बच्चे भी संगीत की दुनिया में रंग जमा रहे हैं। इस लोकप्रिय गाने को काल भैरव और राहुल सिप्लिगुंज ने आवाज दी है। इनमें काल भैरव संगीतकार एमएम किरवानी के बड़े बेटे ही हैं।



किरवानी अब अजय देवगन और तब्बू की फिल्म 'औरों में कहाँ दम था' के गानों को भी संगीत देंगे। 1987 में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर एमएम किरवानी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1990 में फिल्म 'मौली' में उन्हें पहला ब्रेक मिला। इसके बाद रामगोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म 'क्षण क्षणम' ने किरवानी को लोकप्रियता दी। साउथ की फिल्मों में कई गानों को उन्होंने संगीत देकर हिट बनाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म 'क्रिमिनल' से अपना करियर शुरू किया। उन्हें अभी तक 8 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें 11 बार आंध्र प्रदेश सरकार के 'राज्य नंदी पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 'बाहुबली : द बिगनिंग' के लिए भी सैटर्न पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।


अब बात करते हैं उस छोटे हाथी की छोटी फिल्म की, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड जीत लिया। शॉर्ट फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट

फिल्म का पुरस्कार अपने काम किया। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है। जबकि, गुनीत मोंगा इसकी निर्माता हैं। 39 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में इंसान और जानवरों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया। इस छोटी फिल्म की कहानी दक्षिण भारतीय कपल बोमन और बेली की है, जो रघु नाम के एक छोटे अनाथ हाथी की देखभाल करते हैं। इसे तमिल भाषा में बनाया गया। 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के साथ हॉल आउट, द मार्था मिशेल इफेक्ट, स्ट्रेंजर एट द गेट, और 'हाउ डू यू मेजर ए ईयर' भी नॉमिनेट थीं। लेकिन, 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने जीत हासिल की। इस श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है। 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' मुदुमलाई नेशनल पार्क में स्थापित हाथी फुसफुसाते हुए, बोमन और बेली, एक स्वदेशी जोड़े की देखभाल में रघु नाम के एक अनाथ हाथी के बछड़े की कहानी है। डॉक्यूमेंट्री न केवल उनके बीच बनने वाली बॉन्डिंग के साथ प्राकृतिक सुंदरता को भी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया था।

डायरेक्टर कार्तिकी ने पांच साल तक बोमन और बेली की ज़िंदगी को करीब से देखा। कार्तिकी ने बेबी हाथी रघु के साथ जो पल बिताए, वे सब फिल्माए गए। रघु के शॉर्ट के लिए उसे कोकोनट मिक्सचर खिलाया जाता था। इसे खाकर वह खुशी से झूम उठता और फिर ये मोमेंट्स फिल्माए गए। इस तरह साढ़े चार सौ घंटे के फुटेज इकट्ठा हुए। ये शॉर्ट फिल्म तमिलनाडु के मुदुमलाई रिजर्व में फिल्माई गई है। इसमें लोकेशन की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई गई। साथ ही बताया गया है कि कैसे आदिवासी प्रकृति को सहेजे हुए हैं। ये फिल्म पर्यावरण संरक्षण की भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी दिखाती है। फिल्म के शुरू में बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए हैं। बमन बताता है कि रघु उसे जंगल में घायल मिला था। जंगली कुत्तों ने उसकी पूंछ काट ली थी। वह बेहोश पड़ा था। रघु की मां की मौत बिजली के झटके लगने से हो गई थी। रघु को उसके झुंड से मिलाने की काफी कोशिश की गई लेकिन, सभी कोशिशों नाकाम रही। बेली को हाथियों के बच्चों की देखभाल के लिए चुना गया था। वह एकमात्र महिला है, जो ऐसा कर रही थी। बेली और बमन रघु की देखभाल करते हैं। इस शॉर्ट फिल्म में मानव और हाथियों के बीच प्यार और लगाव को दिखाया गया है।

श्रीकृष्ण और सारथी

एक बार भगवान श्रीकृष्ण शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रहे थे। वे विभिन्न तरह के मुकुट और गहने पहन कर अपने आप को दर्पण में बार-बार देख रहे थे, जबकि उनका सारथी रथ तैयार करके बाहर इंतजार कर रहा था। काफी समय इंतजार करने के बाद सारथी ने मन ही मन सोचा-आमतौर पर श्रीकृष्ण भगवान तुरंत आते हैं, आज वे इतना समय क्यों लगा रहे हैं। श्रीकृष्ण भगवान बहुत मनमौजी थे, वे कभी भी अपना कार्यक्रम बदल देते थे, तो सारथी उनका कार्यक्रम जानने के लिए अंदर गया और उसने देखा कि भगवान श्रीकृष्ण दर्पण के सामने खड़े होकर तैयार हो रहे हैं और खुद को बार-बार निहार रहे हैं। तब उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवन्, आज आप इतने अच्छे कपड़े, मुकुट और गहने पहनकर क्यों तैयार हो रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, मैं दुर्योधन से मिलने जा रहा हूँ। सारथी ने कहा, आप दुर्योधन से मिलने के लिए इतना सज-धज क्यों रहे हैं?



पूजा श्री रामचन्द्र (बाबू जी)  
संस्थापक व पथ प्रदर्शक  
श्री रामचन्द्र मिशन  
हार्टफुलनेस वैश्विक संस्था

भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मेरे आंतरिक स्वरूप को नहीं देख सकता, वह केवल मेरे बाह्य रूप की सराहना कर सकता है, तो मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, वह उसी से प्रभावित होगा इसलिए मैं आज इतना सज-धज कर और तैयार होकर जा रहा हूँ। कई बार हमारे सारथी और सलाहकार हमको जरूरत से ज्यादा सलाह देते हैं! तब सारथी ने कहा, लेकिन यह उचित नहीं है। आप जगत के स्वामी हैं। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। श्रीकृष्ण ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए, फिर उन्होंने कहा, अंधेरा प्रकाश की ओर नहीं जाता है, प्रकाश को अंधकार की ओर जाना पड़ता है। इन चंद शब्दों को सुनकर सारथी पूरी तरह निशब्द हो गया। जीवन को संयमित बनाने के लिए हमें जीवन के आंतरिक और बाहरी, दोनों तौर-तरीकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

संकलन : हार्टफुलनेस स्टोरी टीम और राजेश जायसवाल (अभ्यासी)



## एक नजर में....

### 600 श्रद्धालु आज अयोध्या राम लला दर्शन के लिए जाएंगे

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा हर महीने शुरू की गई अयोध्या यात्रा का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आज 600 श्रद्धालुओं का समूह अयोध्या की यात्रा पर रवाना होगा। विधायक शुक्ला ने बताया कि शनिवार 18 मार्च को इंदौर पटना ट्रेन से वार्ड-4 के 600 श्रद्धालु अयोध्या यात्रा पर रवाना होंगे। रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालु सुबह 11 बजे पर पंचमुखी हनुमान मंदिर सुखदेव वाटिका पर एकत्र होंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इन यात्रियों के द्वारा पूजा पाठ कर अपनी यात्रा की सफलता की कामना की जाएगी। यहां से सभी यात्री बस के द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन पर ढोल-ढमाके के साथ सभी श्रद्धालुओं को पटना एक्सप्रेस से बिदाई दी जाएगी।

### ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने फाग महोत्सव मनाया

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। विश्वव्यापी ब्राह्मण सेवा संघ के बेनर तले समाज की महिलाओं का फाग महोत्सव गुरुवार को दास बगीची में आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज की विभिन्न इकाइयों की महिला पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। संगठन की प्रदेश प्रभारी अनिता नागदे, प्रदेश अध्यक्ष निहारिका प्रदीप शर्मा और नंदिता शर्मा ने बताया कि विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता संगठन समय-समय पर धार्मिक सामाजिक आयोजन करता रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दास बगीची में गुलाल, अबीर और फूलों से होली खेली। फाग महोत्सव में भजन, फाग और नृत्य के अलावा ब्राह्मण समाज की महिलाओं का सम्मान भी किया गया।

### रंगारंग अभा कवि सम्मेलन कल

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। श्री अग्रसेन महासभा की मेजबानी में रविवार को सायं 6 बजे से रेसकोर्स रोड स्थित खेल प्रशाल पर अभा कवि सम्मेलन का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने-माने कवि, गीतकार, व्यंग्यकार और राष्ट्रकवि रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। महासभा के अध्यक्ष राजेश बंसल एवं सचिव सीए एनएन गोयल ने बताया कि देश के वीर जवानों को समर्पित कवि सम्मेलन की अध्यक्षता शहर के प्रख्यात राष्ट्रकवि सत्यनारायण सतन करेंगे। कवि सम्मेलन में हाथरस के गीतकार डॉ. विष्णु सक्सेना, हास्य व्यंग्य के कुशल चित्ते दिल्ली के सुदीप भोला, हास्य की फुलझड़ियों से लोटपोट कर देने वाले मुंबई के गौरव शर्मा, हास्य व्यंग्य के ही ख्यातनाम कवि मुंबई के दिनेश बावरा एवं प्रतापगढ़ राजस्थान से ओजस्वी कविगित्री साक्षी तिवारी जैसे सशक्त नाम अपनी रचनाओं से प्रबुद्धजनों को आंदोलित करेंगे। देवास के कवि शशिकांत शशि 'सबरस' इस कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे।

### अग्रवाल समाज का परिचय सम्मेलन आज से

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। समाजसेवी मिश्रीलाल गोयल की स्मृति में अग्रवाल समाज का गांधी हाल में तीन दिवसीय अभा परिचय सम्मेलन का शुभारंभ आज दोपहर 12 बजे होगा। मंच पर परिचय देने सबसे पहली पहुंचने वाली युवती सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। 20 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन के लिए अब तक 1250 प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें 640 युवक एवं 530 युवती और 80 विशिष्ट श्रेणी के प्रयाशी शामिल हैं। प्रत्याशियों के सचित्र विवरण सहित बहुरंगी परिचय पुस्तिका का लोकार्पण भी होगा। पत्रिका के प्रभारी नवीन गोयल, रमेश तायल, एलबी अग्रवाल एवं श्याम अग्रवाल मनोनीत किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए उर्मिला गोयल, पुष्पा गुप्ता, पंकी अग्रवाल, भावना अग्रवाल, प्रज्ञा अग्रवाल, राधा अग्रवाल की समिति गठित की गई है। अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंहल के मार्गदर्शन में सम्मेलन की व्यवस्थाओं को आज अंतिम रूप दे दिया गया।

## संस्था ब्रह्म चेतना एवं अन्य प्रमुख सहयोगी संगठन करेंगे सम्मान

# 29 वर्ष पहले अयोध्या पहुंचे कार सेवकों का पूरे वर्ष 200 स्थानों पर होगा सम्मान

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वर्ष 1992 में चलाए गए आंदोलन के दौरान इंदौर से पहुंचे कार सेवकों का संस्था ब्रह्म चेतना एवं अन्य प्रमुख सहयोगी संगठनों की ओर से सम्मान किया जाएगा। इंदौर जिले के 507 कार सेवकों की सूची राष्ट्रवादी संगठनों से प्राप्त हुई है, जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की है। इन सभी कार सेवकों के सम्मान के लिए शहर में विभिन्न मंदिरों, कॉलोनियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर संकल्प सिद्धि सुंदरकांड पाठ के 200 आयोजन होंगे।

बजरंग दल के तत्कालीन राष्ट्रीय संयोजक जयभानसिंह पवैया आज सायं 7 बजे रणजीत हनुमान मंदिर पर आयोजित पहले उत्सव में कार सेवकों को संबोधित कर अपने प्रेरक संस्मरण सुनाएंगे और अन्य कार सेवकों के संस्मरण भी सुनेंगे। संस्था ब्रह्म चेतना के प्रमुख एवं एमआईसी सदस्य अधिषेक बबलू शर्मा ने बताया कि देश के लाखों, करोड़ों कार सेवकों ने अपने बलिदान से अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।



### नई पीढ़ी को आंदोलन से परिचित कराना है

इस आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि करीब 29 वर्षों के अंतराल में समाज में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है, जो उस कार सेवा एवं जन्म भूमि मुक्ति आंदोलन से अनभिज्ञ ही है। ऐसे आयोजनों से हमारी नई पीढ़ी को भी पता चल सकेगा कि अयोध्या में बन रहे भव्य रामलला मंदिर की बुनियाद में हमारे समर्पित कार सेवकों के त्याग और बलिदान की भावना भी रखी हुई है। रिंग रोड स्थित दस्तूर गार्डन पर आयोजित

कार सेवकों की बड़ी बैठक में राम जन्म भूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े अशोक गुप्ता, अधिषेक उदैनिया, कमल वाजपेयी, राजेश बिजवे सहित अनेक कार सेवकों ने अपने संस्मरण सुनाए और 'राम काज करिबे को आतुर' शीर्षक इस संकल्प सिद्धि सुंदरकांड एवं सम्मान समारोह की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव एवं एमआईसी सदस्य अधिषेक बबलू शर्मा भी शामिल हुए।

### कल कलेक्टर करेंगे लोकार्पण

## युवाओं के संगठन ने जर्जर स्कूल भवन में 6 नए क्लास रूम बनवाए



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

इंदौर एल्युमुनाती राउंड टेबल 296 युवाओं की एक ऐसी संस्था है, जो व्यक्तित्व विकास के साथ ही सेवा प्रकल्पों के क्षेत्र में भी काम करती है। इंदौर की इस संस्था ने अपने जज्बे और जोश के साथ एक ऐसा ही प्रकल्प साकार कर दिखाया, जब रालामंडल के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की जर्जर हालत को देखकर संस्था के अध्यक्ष प्रणय गोयल, संयोजक वरुण बागड़ी, सह संयोजक रोहित शुक्ला ने इस भवन के कार्यालय का बीड़ा गत 1 नवंबर 2022 को हाथ में लिया और मात्र चार माह इस स्कूल भवन में 6 नए क्लास रूम बनाकर यहां पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों के हित में इस सेवा प्रकल्प को पूरा कर दिखाया।

नए क्लास रूम में फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड, पंखे, रोशनदान, बिजली, खिड़कियां और अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहां तक कि क्लास रूम के बाहर के कॉरिडोर में आकर्षक पौधे भी लगाए गए हैं। नए क्लास रूम का निर्माण इस डिजाइन के साथ किया गया है कि जरूरत पड़ने पर दूसरी मंजिल भी तैयार हो जाएगी। इस प्रकल्प में स्कूल की प्राचार्य संध्या जायसवाल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग मिला।

कलेक्टर इलैया राजा टी. रविवार को सुबह 10.30 बजे इस नए भवन का लोकार्पण करेंगे। संगठन के सेक्रेटरी सिद्धार्थ दोषी एवं कोषाध्यक्ष गुंजीत अजमानी के अनुसार भवन के कार्यालय में लगी राशि ग्रुप के सदस्यों ने आपस में ही जन सहयोग से एकत्र कर जमा की है।

## शिविर लगाकर लाड़ली बहना योजना के लिए की केवाईसी



खुलासा फर्स्ट... इंदौर। हितग्राही महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलवाने के लिए वार्ड 68 में भाजपा अल्पसंख्यक नेताओं की ओर से केवाईसी शिविर लगाया गया। टाटपट्टी बाखल पर सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश, लाड़ली बहना योजना शिविर लगाया। विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के निर्देश पर आयोजित शिविर में प्रमुख रूप से शिविर में अल्पसंख्यक मोर्चा नगर महामंत्री समीर बा, नगर मंत्री शाकिर मुन्ना, इरफान खान, सूरज सिरवैया, साजिद रॉयल, गुलरेज पठान, साबिर खान और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा 4 वार्ड क्रमांक 68 में लाड़ली बहना योजना शिविर में महिलाओं की समग्र आईडी की केवाईसी की गई और उन्हें योजना से रूबरू करवाया। जानकारी भाजपा अल्पसंख्यक के नगर मंत्री शाकिर मुन्ना ने दी।

### परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ का गणगौर महोत्सव आज

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। श्री परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ एवं नारी शक्ति संगठन राजेंद्र नगर के तत्वावधान में इस वर्ष भी गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक पूनम संजय मिश्रा ने बताया कि आज सायं 4.30 बजे से राजेंद्र नगर टंकी हाल से गणगौर का बाना निकाला जाएगा। इस मौके पर महिलाएं परंपरागत परिधान में सज-धजकर आएंगी और एक-दूसरे को गणगौर पर्व की शुभकामनाएं देंगी। अनेक विशिष्ट अतिथि भी उत्सव में शामिल होंगे।



एसजीएसआईटीएस में 18 मार्च तक उत्सव आयाम-23

# संस्कृति और तकनीक का संगम बना उत्सव आयाम



## खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एसजीएसआईटीएस में तकनीकी-सांस्कृतिक उत्सव आयाम 23 का आयोजन कर रहा है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों में लगभग 1500-2000 विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान का आधिकारिक एयरोमॉडलिंग क्लब यान, अभियांत्रिक: एक आर सी विमान मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है।

आयाम की शुरुआत सीईई विभाग द्वारा इलेक्ट्रोमैनिआ से हुई और जिसमें दिलचस्प विश्लेषणात्मक समस्याएं शामिल थीं। कंप्यूटर क्लब, डिजाइन वॉर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए



विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए, जिन्होंने अपनी डिजाइनिंग प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आइडिया लैब के ओडिशा में छात्रों की अच्छी भागीदारी

देखने को मिली। नेचर्स क्लब द्वारा अपने कार्यक्रम कलावन में स्टोन पेंटिंग, ओरिगेमी जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके लिए

अखाड़ा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सिल्वरिया में सभी विभागीय गतिविधियां एक साथ हुईं।

एनएसएस द्वारा कहे कहानी ने समाज की समस्याओं को संबोधित करते हुए एक सुंदर नुकड़ नाटक का प्रदर्शन किया। क्लब प्रतिबिंब द्वारा कला प्रदर्शनी में वास्तव में कुछ शानदार कलाकृतियां देखी गईं। मिनी कैनवास से लेकर सेरेमिक मेकिंग तक, शिक्षक और छात्र उत्साह से भाग ले रहे। अंत में संस्थान द्वारा आयोजित कल्चरल नाइट, जहां हर कोई आकर्षक लय और सदाबहार गीतों पर झूम रहा था, वह कला, संगीत और खुशी से भरा माहौल था।

## पूर्व मिस इंडिया प्रिया शुक्ला ने दिए ब्यूटी टिप्स



खुलासा फर्स्ट... इंदौर | आई थीरोज महिला महिला उद्यमी गुपु द्वारा इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें वर्ष 2019 की मिस इंडिया प्रिया शुक्ला ने ब्यूटी टिप्स दिए, जबकि सीए श्रीरित जैन ने फाइनसियल टिप्स महिलाओं को दिए। कार्यक्रम में मनोरंगी जोवले की लेखिका गरिमा मुद्गल ने महिलाओं को सुनकरे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गुपु की फाउंडर मेबर दीपिका पाठक ने बताया कि हम हर महीने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सभी गुपु मेबरस को आगे बढ़ने के टिप्स नामचीन हस्तियों द्वारा दिए जाते हैं। गुपु महिलाओं को आगे बढ़ाने और भविष्य में क्या क्या बिजनेस संभावनाएं हो सकती हैं। उसी के लिए कार्य करता है।

## कान्यकुब्ज समाज के वरिष्ठजनों का सम्मान



खुलासा फर्स्ट... इंदौर | कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के वर्तमान एवं पूर्व में पदाधिकारी रहे समाज के 75 वर्षों से अधिक के वरिष्ठजनों का अमृत महोत्सव सम्मान एवं फाग उत्सव का आयोजन सहकारिता मैदान किला मैदान लक्ष्मीबाई चौराहा पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर कान्यकुब्ज समाज को अपनी सेवाएं देने वाले पंडित सुरेश चंद्र द्विवेदी, पंडित कृपाशंकर शुक्ला, पंडित राजेंद्र पाठक, पंडित उमा शंकर अग्निहोत्री, पंडित प्रकाश तिवारी, पंडित चंद्रकांत तिवारी, पंडित गोविंद अवस्थी, डॉ सतीश चंद्र शुक्ला, पंडित जगदीश पांडे, पंडित चंद्र प्रकाश बाजपेई और गंगा प्रसाद त्रिवेदी को समाज की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक मुकेश पांडे और पंडित विकास अवस्थी थे। फाग महोत्सव के उत्सव में भजन गायक ने भजनों की जोरदार प्रस्तुति दी।



## मथुरा-वृंदावन के लिए यात्रा रवाना

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

विराट जनसेवा समिति और चिंटू सिलावट द्वारा चार दिनी मथुरा-वृंदावन की यात्रा करवाई जा रही है। साथ ही गिरिराजजी, बरसाना और आगरा भी यात्रा पहुंचेगी। यात्रा पर रवाना होने से पहले सभी यात्रियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला, चिंटू सिलावट, यात्रा संयोजक पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, विक्की रघुवंशी, गुड्डू जायसवाल, संदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया।

### राजेंद्र धारकर झोन-14

#### जाहिर सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती बसंतीबाई पति जयराम द्वारा झोन 14 राजस्व विभाग पर आवेदन प्रस्तुत कर मकान/भूखंड नम्बर 1224-एस (का भाग) पता-कुंदन नगर, अहिरखेड़ी, पिन नं. 1004586321 संपत्ति का नामांतरण चाहा गया है। यह जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 7 दिवस की अवधि तय किया है। व्यक्ति, बैंक, संस्था, अन्य को उक्त संपत्ति पर आपत्ति हो तो झोन 14 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी,  
झोन क्रमांक 14  
नगर पालिका निगम, इंदौर

### साकेत नगर झोन क्र. 10

#### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में संपत्ति का रिकार्ड विक्रेता श्री राजेश धनवाल पिता हरिनारायण धनवाल का नाम दर्ज था। आवेदक जितेंद्र दवाड़े पिता मंशाराम दवाड़े, नेहा दवाड़े पति जितेंद्र दवाड़े, पता-87-पैक, कृष्णबाग सेक्टर बी, खजराना द्वारा रजिस्टर्ड/ वारिस नाते द्वारा झोन क्रमांक 10 राजस्व विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर पिन क्र. 1003089016 संपत्ति का नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दि. 18 मार्च 2023 से 7 दिवस की समयवधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त संपत्ति के नामांतरण में आपत्ति हो तो झोन क्र. 10 (साकेत नगर) के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयवधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी,  
साकेत, झोन क्रमांक 10  
नगर पालिका निगम, इंदौर

### राजेंद्र धारकर झोन-14

#### जाहिर सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रामगोपाल राठौर पिता श्री हीरालालजी राठौर द्वारा झोन 14 राजस्व विभाग पर आवेदन प्रस्तुत कर मकान/भूखंड नम्बर 3385 (का भाग) पता-पैक उत्तर दिशा का भाग, सुदामा नगर, सेक्टर-ई, पिन नं. 1001226720 संपत्ति का नामांतरण चाहा गया है। यह जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 7 दिवस की अवधि तय किया है। व्यक्ति, बैंक, संस्था, अन्य को उक्त संपत्ति पर आपत्ति हो तो झोन 14 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी,  
झोन क्रमांक 14  
नगर पालिका निगम, इंदौर

### साकेत नगर झोन क्र. 10

#### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में संपत्ति का रिकार्ड विक्रेता शेख खलील पिता शेख शौकत, श्रीमती नसरीन बी पति शेख खलील का नाम दर्ज था। आवेदक अब्दुल सत्तार कुरेशी पिता अब्दुल गफ्फार कुरेशी, पता-25, तंजीर नगर, खजराना द्वारा रजिस्टर्ड/ वारिस नाते द्वारा झोन क्रमांक 10 राजस्व विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर पिन क्र. 1003277476 संपत्ति का नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दि. 18 मार्च 2023 से 7 दिवस की समयवधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त संपत्ति के नामांतरण में आपत्ति हो तो झोन क्र. 10 (साकेत नगर) के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयवधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी,  
साकेत, झोन क्रमांक 10  
नगर पालिका निगम, इंदौर



इस हफ्ते 15 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ खरमास शुरू हो गया है। जो कि अगले महीने 14 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक काम नहीं होंगे। लेकिन पूजा-पाठ और व्रत-पर्व मनाए जाएंगे। अगले हफ्ते 21 मार्च को अमावस्या है। इस दिन मंगलवार होने से भौमावस्या का शुभ संयोग बनेगा। ये दिन स्नान-दान करने के लिए महापर्व रहेगा। बुधवार को नव संवत्सर और चैत्र मास शुरू होंगे। महीने के आखिरी रामनवमी महापर्व भी रहेगा। वहीं, अप्रैल में चैत्र मास के आखिरी दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी।

## खरमास में मनेंगे बड़े तीज-त्योहार स्नान-दान और पूजा-पाठ से बढ़ेगा पुण्य

**21** मार्च, मंगलवार को अमावस्या होने से भौमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़ों का दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। जानकारों के मुताबिक, भौमावस्या पर किया गया दान कई गुना पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन पितरों की पूजा भी खासतौर से की जाती है। अमावस्या पर श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस तिथि को पितृ पर्व भी कहा जाता है। खरमास के चलते मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। लेकिन खरीदारी की जा सकेगी। ज्योतिषियों का कहना है कि जब सूर्य मीन राशि में होता है तब शुभ काम नहीं होते लेकिन इस दौरान हर तरह की खरीदारी की जा सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुहूर्त ग्रंथों में पूरे साल खरीदारी के मुहूर्त बताए गए हैं। खरमास के दौरान 31 मार्च को पुष्य नक्षत्र योग में खरीदारी का विशेष मुहूर्त रहेगा।

### चैत्र नवरात्र में खरीदारी के मुहूर्त

इस साल खरमास के दौरान ही चैत्र नवरात्रि रहेगी। इन दिनों में मांगलिक काम तो नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन ही तरह की खरीदारी कर सकते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि चैत्र नवरात्र के चलते शुभ मुहूर्त में होने वाली खरीदारी का फायदा लंबे समय तक मिलता है। इस बार नवरात्रि में खरीदारी के लिए हर दिन शुभ रहेगा। शक्ति आराधना के पर्व में सर्वाथसिद्धि, अमृतसिद्धि, द्विपुष्कर और रवियोग बनेंगे। इनमें की गई खरीदारी लंबे समय तक फायदा देने वाली रहेगी।

### खरमास में पूजा और स्नान-दान का महत्व

खरमास में भगवान की आराधना का विशेष महत्व है। धर्मग्रंथों के मुताबिक, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाने और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस महीने तीर्थों, घरों और मंदिरों में भगवान की कथा करनी चाहिए। भगवान की विशेष पूजा होनी चाहिए। साथ ही व्रत-नियम पालन करते हुए दान, पुण्य और भगवान की पूजा करना चाहिए।

### बड़े यज्ञों का पुण्य देने वाला व्रत है पापमोचनी एकादशी

चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ग्रंथों में पापमोचनी एकादशी कहा गया है। आज ये व्रत किया जा रहा है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बड़े यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। इसलिए इसका बहुत महत्व है। पापमोचनी एकादशी व्रत में विधि-विधान से भगवान लक्ष्मी-नारायण की पूजा होती है। इस दिन भगवान कृष्ण का अभिषेक और ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना फलदायी होता है।



**खुलासा**  
**SPECIAL**

### भगवान विष्णु की पूजा विधि

सबसे पहले भगवान गौरी-गणेश की पूजा कर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पूरी पूजा करें। भगवान विष्णु को शुद्ध जल, दूध-दही, पंचामृत से स्नान करवा कर वस्त्र चढ़ाएं। मौली, चंदन, अक्षत, अबीर-गुलाल, फूल, माला, जनेऊ और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद बाँटें।

### कैसे करें एकादशी का व्रत

व्रत करने वाले साधकों को दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि की रात में ही मन में ये संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करूँगे। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए।

### एकादशी से जुड़ी कथा और महत्व

मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी व्रत को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस व्रत से तकलीफ भी दूर होती है। जाने-अनजाने में किए पाप खत्म होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय मेधावी नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के कारण मञ्जुघोषा नामक अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप मिला था लेकिन बाद में मञ्जुघोषा के पश्चाताप के निवारण के लिए ऋषि ने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया था। उस एकादशी का उपवास करने से मञ्जुघोषा पिशाचिनी की देह से मुक्त हुई थी।

## नववर्ष के राजा हैं बुध और शुक्र हैं मंत्री

हिन्दी पंचांग का नया विक्रम संवत् 2080 शुरू हो रहा है। इस नवसंवत् का नाम नल है। इस नए वर्ष के राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। बुध और शुक्र की वजह से नववर्ष सभी के लिए शुभ रहेगा। व्यापारियों को इस साल बड़े लाभ मिल सकते हैं, व्यापार का विस्तार हो सकता है। बुधवार से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी, इसे रामरात्र भी कहा जाता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के मुताबिक, बुध के राजा होने से सुख-समृद्धि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा होंगे। इस वर्ष कर्कोटक नामक नाग रहेगा, तम नाम का मेघ बारिश करेगा। शुक्र के मंत्री होने से वैभव और संपत्तियों में बढ़ोतरी होगी। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि नवमी पर श्रीराम का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि में श्रीराम चरित मानस का पाठ करना चाहिए और अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए।

**चैत्र नवरात्रि में ऐसी रहेगी ग्रहों की स्थिति-** इस चैत्र में नवरात्रि की शुरूआत में गुरु अपनी राशि मीन में सूर्य के साथ रहेगा। शनि अपनी राशि कुंभ में है। शुक्र और राहु की युति मेष राशि में रहेगी। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि शुक्र-राहु पर रहेगी। इस वजह से चैत्र नवरात्रि में तंत्र से जुड़े काम जल्दी सफल हो सकते हैं। ये नवरात्रि सभी को सफलता दिलाने वाली रहेगी। इस समय में संयम से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा।

**चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं ये शुभ काम-** इस नवरात्रि में मंत्रों का जप करना चाहिए। श्रीराम का ध्यान करना चाहिए। राम नाम का और देवी मंत्रों का जप करें। श्रीराम चरित मानस, देवीसुक्त और देवी पुराण का पाठ करने से भक्त के सभी दुःख दूर हो सकते हैं। नवरात्रि में पूजा-पाठ के साथ ही ध्यान

करने से तनाव दूर होता है। मन को शांति मिलती है और संतुष्टि की भावना बढ़ती है। समस्याओं को सुलझाने का सामर्थ्य बढ़ता है। देवी कृपा से भक्तों की बाधाएं दूर होती हैं। देवी दुर्गा की पूजा के महापर्व चैत्र नवरात्रि में छोटी कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं को नए कपड़े उपहार में दें। पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करें। जरूरतमंद कन्याओं को खाना खिलाएं और धन का दान करें। इस नवरात्रि में रोज सुबह या शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

देवी दुर्गा और शिवलिंग की पूजा एक साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें।



## मुख्यमंत्री ने किया अनकवाड़ी में 240.17 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास देवरानी, जेठानी ही नहीं मंझली और संझली भी होंगी लाइली बहना



### कनिका और दिव्यांश के उपचार की घोषणा खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन की बहनों से कहा आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। बहनों से मिलने उनका भैया आया है। खरगोन में बेटा-बेटी के बीच भेद नहीं होता लेकिन सब दूर ऐसा नहीं है। मैंने बहनों का मान कम होता देखा तो पुरुषों के समान स्थान दिलाने के प्रयास किए। पहले लाइली लक्ष्मी, फिर माता-पिता को उनकी शादी का खर्च कम करने के लिए कन्या विवाह योजना प्रारंभ की। अब बहनों की आर्थिक हालात सुधारने और छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद के उद्देश्य से लाइली बहना योजना लागू की है। योजना में देवरानी हो या जेठानी या मंझली या संझली, सबको 1-1 हजार रुपए हर माह मिलेंगे। इस तरह तुम्हारा भैया पूरे 12 महीने साथ रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को खरगोन जिले के अनकवाड़ी में लाइली बहना योजना और पेसा नियम जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

**शासन बनवाएगा प्रमाण पत्र, 25 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन...** मुख्यमंत्री ने कहा लाइली बहना के आवेदन भरने बहनों को धूप में नहीं जाने दिया जाएगा।

25 मार्च से गांव-गांव और नगरों के हर वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे। जब तक गांव की एक-एक पात्र बहना का आवेदन नहीं भर दिया जाता तब तक शिविर उसी गांव में लगा रहेगा। अप्रैल तक फार्म भरे जायेंगे, मई में जांच होगी और 10 जून से खाते में पैसा आएगा।

**बिस्तान उद्बहन सिंचाई योजना की मां...** सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बिस्तान उद्बहन सिंचाई परियोजना का नाम संत बोन्दरूबाबा, बिस्तान को तहसील का दर्जा देने, श्रीखण्डी गांव के हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, बरूड में रघुनाथ मंडलोई की प्रतिमा लगाने सहित अन्य प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन और कन्या-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने बंजारा समाज द्वारा भेंट नगाड़ा भी बजाया। मुख्यमंत्री को आजीविका समूह की बहनों ने 51 किलो की माला और गुजराती पगड़ी पहनाई। मिशन की बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान को 2 मीटर लंबी राखी भी बांधी। पूर्व राज्य कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, आत्माराम पटेल, धूलसिंह डार और जिपं उपाध्यक्ष बापूसिंह परिहार, खरगोन नपा अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा मौजूद रहे। संचालन राजकुमार शर्मा और अमित वर्मा ने किया।

### कनिका-दिव्यांश का होगा उपचार, मनोज लगाएगा उद्योग

मुख्यमंत्री चौहान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान किया। उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों को हितलाभ स्वीकृति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में कनिका और दिव्यांश के उपचार के लिए क्रमशः 1.41 और 1.50 लाख रुपये के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए। भगवानपुरा की आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था को 86 लाख 40 हजार रु. व मनोज प्रजापति को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रु. का स्वीकृति-पत्र प्रदान किया। पिपल्याबावड़ी की सलिताबाई को किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 3 लाख, रेशमीबाई बालू को 2 लाख की अनुग्रह सहायता, प्रेमलता चौहान को 155 स्व-सहायता समूह के बैंक लिंकेज के 418 लाख 53 हजार रु., चंद्रकांत जैन को गरम मसाले का स्व-रोजगार स्थापित करने 2 लाख, पुष्पा सांवले को राज्य सिविल सेवा प्रोत्साहन के लिए 20 हजार रुपए, भुवानसिंह सिसोदिया को भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में 1 लाख 70 हजार और बनहेर के अजय यादव को रैपर कम बाइंडर के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये के स्वीकृति-पत्र प्रदान किये गए। मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ 77 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और 171 करोड़ 40 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किए।

## महाकाल लोक में बनेगी देश की सबसे बड़ी भोजनशाला

एक लाख श्रद्धालु रोज करेंगे भोजन

खुलासा फर्स्ट... उज्जैन

1 जुलाई से शुरू हो सकती है भोजनशाला

विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में महाकाल महालोक के निर्माण के बाद दिन प्रतिदिन व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। मंदिर में दर्शन व्यवस्था की बात हो या फिर इसकी सुरक्षा की श्री महाकाल समिति ऐसे प्रयास कर रही है, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन से लेकर मंदिर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। जुलाई में बाबा महाकाल के भक्तों को भोजनशाला की बड़ी सौगात मिलने वाली है। यह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला होगी, जिसमें लगभग एक से 1.50 लाख श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे।

श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री महाकाल लोक के पास एक भोजनशाला भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भोजनशाला

खाना बनाने की लगभग चार करोड़ की अत्याधुनिक मशीनों से लैस दो मंजिला भोजनशाला की शुरुआत संभवतः 1 जुलाई 2023 से हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस भोजनशाला में मशीनें खरीदने से लेकर इसके निर्माण तक सभी कार्य दानदाताओं की मदद से किया जा रहा है। मंदिर समिति को राष्ट्रीयकृत बैंक और दिल्ली के दानदाताओं के माध्यम से राशि प्राप्त हो रही है, जिससे यह भोजनशाला पूरी तरह से अत्याधुनिक बनाई जा रही है।

की खासियत रहेगी कि यह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला होगी, जिसमें प्रतिदिन एक से 1.50 भक्त भोजन कर सकेंगे। करीब 40 हजार वर्गफीट में बनाई जा रही भोजनशाला पूरी तरह हाईटेक होगी, जिसमें चार करोड़ की लागत से इसमें भोजन बनाने की आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी।

## मुख्यमंत्री के दौरे के पहले नक्सलियों की धमकी

खुलासा फर्स्ट... भोपाल

बालाघाट जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कांद्रीघाट के जंगल में दो बैनर बंधे मिले हैं। एक में पुलिस के लिए मुखबिरी करना बंद करने और दूसरे में मध्यप्रदेश विशेष दस्ता भर्ती को बंद करो, शिवराज सरकार, मोदी सरकार मुर्दाबाद, टांडा दलम एरिया कमेटी और दडेकसा दलम लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। पुलिस के लिए अच्छी खबर: एसपी... मामले में बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कांद्रीघाट के जंगल में दो बैनर मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक बैनर में नक्सलियों ने पुलिस के लिए मुखबिरी करना बंद करो तथा दूसरे में लिखा है कि बालाघाट में पांच दिनों से चल रही मध्यप्रदेश विशेष दस्ता प्रक्रिया को बंद करो। उन्होंने कहा कि दोनों बैनर में लिखी इबारत पुलिस के लिए अच्छी खबर है।

धमकी भरे अंदाज में लिखे गए ये बैनर बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी बहेला पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली सीतापाला चौकी इलाके में मिले हैं। कांद्रीघाट के जंगल में लांजी-भिलाई मार्ग पर बैनर बांधकर और पर्व फेंके गए हैं। नक्सलवादियों ने बैनर में

### आदिवासियों पर अत्याचार का लगाया आरोप

## विधानसभा में फूट-फूट कर रोई विजयलक्ष्मी

खुलासा फर्स्ट... भोपाल

विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में महु कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने मृत युवती और युवक के परिजनों पर मामला दर्ज करने का विरोध किया। वे गृहमंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। उधर, विधायक विजयलक्ष्मी साधु रोते हुए सदन से बाहर चली गईं।

पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधु ने कहा- सरकार आदिवासियों और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने महु कांड पर जवाब




देते हुए कहा- पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है। सीसीटीवी फुटेज में थाने पर हमला करने के आधार पर 13 या 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मृत युवती और युवक के परिजनों पर भी मामला दर्ज हुआ है। आज सत्र हुआ समाप्त तो शून्य हो जाएगा अविश्वास : सत्र समाप्त होने के पहले अविश्वास प्रस्ताव सदन में

स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है या निर्णय नहीं हो पाता है तो वह शून्य हो जाएगा, जबकि विशेषाधिकार हनन की सूचना अस्तित्व में रहेगी। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप जाने का निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना भी विचाराधीन है। हालांकि, वे खेद जता चुके हैं।

यह है मामला : महु के पास गवली पलासिया गांव। यहां आदिवासी लड़की से कथित गैंगरेप के बाद हत्या पहेली बन गई है। आरोप पाटीदार समाज के लड़कों पर लगे हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। गैंगरेप का नहीं। जिस लड़के के घर में लड़की की मौत हुई है, वहां आसपास के लोग पानी गर्म करने की रॉड से करंट लगने से मौत होना बता रहे हैं।

|| शव यात्रा ||



**स्व. पारसमल जैन**  
दिनांक : 17-03-2023, शुक्रवार (वर्ष 57)

मेरे पिता श्री पारसमल जैन (कांकरिया) पुत्र स्व. श्री फूलचंदजी कांकरिया जिनका स्वर्गवास आज 17 मार्च 2023 को हो गया है। जिनकी अंतिम यात्रा 18 मार्च 2023 को प्रातः 10 बजे निवास स्थान 400 अंबिकापूरी मेन एक्सिलेंट अकादमी के पास से पंचकुईया मुक्तिधाम जायेगी!

श्रीकाकुल  
उमेश जैन 9340977335



## आपदा से निपटने की मानसिकता रखें : एसपी अगम जैन

खुलासा फर्स्ट... झाबुआ

शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज में पांच दिवसीय भूकंप विरोधी भवन निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्र के आपदा प्रबंधन संस्था के कार्यपालन संचालक व गृह सचिव रवींद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ।

शुक्रवार को एसपी अगम जैन ने कहा कुछ चीजें अचानक होती हैं। जैसे पेटलावद में बलास्ट हुआ था, कोरोना की महामारी, उतराखण्ड में बादल का फटना, बोरवेल में बच्चों का गिरना यह भी एक आपदा है, हम चाहते हैं इस प्रशिक्षण का आप फायदा लें। हो सकता है पुलिस आपदा के समय पर नहीं पहुंच पाए किंतु आप मोर्चा सम्माल ले और घटना को नियंत्रण में कर सकते हैं। इस

प्रशिक्षण का पूरा लाभ लें और इसे शेयर भी करें ताकि जिले में कोई आपदा आए तो संयुक्त रूप से सामना कर जनहानि रोकी जा सके।

डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड शशिधर पिल्लई ने प्रेक्टिकल के माध्यम से बाढ़ से बचाने के तरीके, आग से नियंत्रण के लिए कार्यवाही एवं भूकंप आदि आपदा के समय की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रशिक्षण दिया। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त। संस्थान के संयुक्त संचालक डॉ. जार्ज वी जोसेफ गृह ने आपदाओं, विद्यमान खतरों एवं सवेदनशीलता पर विचार रखे। बताया आपदाओं के भाव को कम करना है। तो समुदाय को तैयार करना होगा तभी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।



### इनका सम्मान

भूकंप विरोधी भवन निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज एनजीओ, सरकारी इंजिनियर, प्राइवेट इंजिनियर, कान्स्ट्रक्टर एवं इंजिनियर विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थाएं से आए संयुक्त संचालन डॉ. जार्ज वी.जे. जोसेफ ने सभी प्रतिभागियों को आपदा बचाव व सुझाव कि जानकारी साझा कि, इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जागरूक किया जा रहा है, कि भूकम्प जैसी आपदा से अपने भवनों को सुरक्षित किया जा सकता है। एनजीओ के साथ इस प्रशिक्षण में यूनिसेफ से स्वाति डे, मीनाक्षी, शास्वत नायक, जिम्मी निर्मल, एनआरएलएम के 20 स्वयं सहायता समूह की महिला अध्यक्ष उपस्थित थीं। संचालन संस्थान के अभिषेक मिश्रा ने किया। तकनीकी विशेषज्ञ नेहा श्रीवास्तव उपस्थित थीं। उन्होंने कहा भवन निर्माण में भारतीय मानकों का पालन ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए अनिवार्य है।

### कार्की में खेत पहुंच मार्ग से पेश की मिसाल



खुलासा फर्स्ट... देपालपुर। ग्राम कार्की में किसानों को खेत-खलिहान आने-जाने में परेशानी को देखते हुए न केवल स्वयं के खर्च से रास्ते पर मुसम डलवाई बल्कि जेसेबी की प्रेसिंग भी कराई। ऐसा कर एक मिसाल पेश की। किसान भरूसिंह केवट, जुवानसिंह केवट, दिनेश, महेश केवट, तेजराम, गोवर्धन, मेहरबान, प्रेम बाई कंचन सिंह ठाकुर, इन सभी किसान जनों ने दो लाख रुपए खर्च किए। ग्राम पंचायत ने इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया। एक किसान ने बताया वर्षों से परेशान होते थे। और आने जाने और फसलों को लाने में बहुत कठिनाई होती थी अब इस रास्ते से सभी किसान को राहत मिलेगी। बरसों तक पंचायत का मुंह ताकने के बाद किसानों ने खुद ही ग्रेवल रोड बनाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर मार्ग बनाने का निर्णय लिया। सबने मिलकर 2 लाख रुपए इकट्ठा किए और सफलतापूर्वक काम को पूरा भी कर लिया। इससे अन्य किसानों को भी यह प्रेरणा मिलेगी कि वे अपनी समस्या खुद दूर करें। हालांकि खतरा है इससे पंचायतें ज्यादा गैर जिम्मेदार न बन जाएं।

### गांजा बेचने पहुंचे युवक को पुलिस ने पकड़ा

खुलासा फर्स्ट... पेटलावद। जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रायपुरिया थाना प्रभारी राजकुमार कुंसारिया की टीम ने गांजा बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर पेटलावद से रायपुरिया गांजा बेचने आये युवक को धरदबोचा। कुंसारिया के बताया मादक पदार्थों को बेचने व सेवन करने वालों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। लगातार नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कुंसारिया ने नशे के कारोबारियों को चेताया तत्काल इस काम को छोड़ दें, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

### नंदकुमारसिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री से मीडिया को रखा दूर

खुलासा फर्स्ट... बुरहानपुर

जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित शाहपुर नगर में 17 मार्च की दोपहर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ जिसमें सर्व प्रथम नंदकुमारसिंह चौहान जिन्हें निमाड़ के लोग नंदू भैया के नाम से जानते थे, की पंचधातु की प्रतिमा का मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के हाथों अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने घोषणा की कन्यादान योजना में बदलाव कर सामग्री के बदले चेक दिया जाएगा। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपए की भी घोषणा भी की।

यह प्रतिमा पुराने शासकीय अस्पताल के बाजू में स्थापित की है मोके पर आदिवासी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया वहा से बाय कार से होते हुए बड़ा बाजार शाहपुर पहुंचे जहा उनके नेपानगर विधायक सुमित्रा कास्टेकर, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, मंडी बोर्ड उपाध्यक्ष सुश्री मंजू दादू, पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज तारवाला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय गुप्ता,

## कन्यादान योजना में दहेज का मिलेगा चेक



जिला अध्यक्ष मनोज लधवे, हर्षवर्धन सिंह चौहान एवं भाजपा के नवयुवा कार्य करता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कन्यादान योजना में बदलाव कर सामग्री देने के बदले चेक दिया जायेगा साथ ही सींगल क्लिक से पिछड़ा वर्ग पोस्ट

मेट्रिक छात्रवृत्ति वितरण, एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण भूमिपूजन किया। जब मीडिया कार्यक्रम के कवरज के लिए अंदर प्रवेश करने लगे तो वहा बैरिकेड लगा दिए। स्थानीय नेता भूल जाते हैं मीडिया का काम केवल प्रेस नोट छापना नहीं है।

## दो फर्म पर तीन लाख रुपए का जुर्माना

खुलासा फर्स्ट... आलीराजपुर

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी अनुपमा निनामा ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2) के तहत मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर संजीव पिता नरेंद्र बहादुरसिंह राजपूत हाल मुकाम विदेशी मदिरा दुकान पारा रोड़ बोरी, स्थाई पता इंदौर, एजेंट पटेल बीयर प्रायवेट लिमिटेड डायरेक्टर निकुंज शिवहरे निवासी इंदौर से लिए गये पेय पदार्थ 22 जीन एंड अरेंज टेंगों 22 के नमूनों को नकली घोषित दो फर्म पर जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52, 58 के तहत संजीव सिंह राजपूत पर एक लाख एवं मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एंड बेवरेज प्रायवेट लिमिटेड खोड़ी ग्राम जिला खरगोन (म.प्र.) पर दो लाख रुपए इस प्रकार कुल तीन लाख रूप. का अर्थदण्ड अधिरोपित कर भविष्य के लिए सचेत किया है इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न करें। उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 15 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। नियत समयावधि में वांछित अधिरोपित दण्ड जमा नहीं कराई जाती है तो अर्थदण्ड राशि भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल की जाएगी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रमी की अनुज्ञप्ति समयावधि में जमा नहीं की जाती है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345(1) के तहत अनावेदक के विरुद्ध पृथक कार्रवाई की जाएगी।

### प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पहुंचे मनावर

## चुनाव जीतने के लिए अपना बूथ मजबूत करें : विष्णुदत्त शर्मा

खुलासा फर्स्ट... धार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को मनावर में बूथ विस्तारक योजना 2 अभियान में कहा चुनावी जीत के लिए बूथ की मजबूती जरूरी है। बूथ अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने 64 हजार 634 बूथों को डिजिटल बनाने का काम किया था। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और पत्रा प्रमुख बनाने का काम किया था। अब 14 से 24 मार्च तक बूथ विस्तारक अभियान-2 चलाया जाएगा और इस दौरान 10 दिनों तक पूरी पार्टी बूथों पर रहेगी।

शर्मा ने कहा बूथ विस्तारक अभियान-2 के दौरान मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता, मंडल पदाधिकारी आदि सभी बूथों पर रहेंगे। 10 दिनों तक प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर लगभग 12 हजार विस्तारक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक अभियान-2 में बूथ समिति की समीक्षा एवं गठन कर पत्रा प्रमुख एवं पत्रा समिति बनाई गई है। हितग्राहियों से संपर्क और पार्टी की पत्रा समिति से जोड़ने का काम भी करेंगे। हर बूथ पर एक हितग्राही, महिला, युवा प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में 19 लाख कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।





नक्शे के विपरीत निजी अस्पताल

## बिना अनुमति लगा रहे फायर इंस्ट्रुमेंट, जुमाने से इतिश्री



मोहन कुशवाह

खुलासा फर्स्ट... देवास

शहर के निजी अस्पतालों ने बिना अनुमति फायर इंस्ट्रुमेंट लगा रखे हैं, लेकिन बिना परमिशन के। अस्पतालों में आपात परिस्थिति से निपटने के लिए फायर फाइटर होना अनिवार्यता है लेकिन अनुमति नगर निगम से लेना होती है। नगर निगम अनुमति तब देता है जब अस्पताल पूरी तरह से वैध एवं नियमों के अनुरूप निर्मित हुआ हो। लेकिन शहर का कोई भी अस्पताल नियमों के अनुरूप नहीं बना है इसलिए किसी के पास अनुमति नहीं है।

शहर आज भी पिछड़ा है, उसका कारण है न सरकारी मशीनरी ठीक से काम करती है और न निजी होटल, अस्पताल एवं कॉम्प्लेक्स नियमों के अनुसार चलते हैं। सारी हरकतें अधिकारियों को बखूबी पता है और सरकार को व्यावसायिक भवनों की जानकारी है लेकिन यह सब चल रहा है भगवान भरोसे। जब कोई इसको लेकर आवाज उठाता है तो उसे वहीं दबा दिया जाता है। अखबारों में हमेशा होटलों, निजी अस्पतालों एवं कॉम्प्लेक्स के बारे में समाचार पत्रकाशित होते रहते हैं और समय-समय पर जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया जाता है लेकिन कार्रवाई का भरोसा देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है।

शहर में जितने भी निजी अस्पतालों के भवन सीना तानकर खड़े हैं, सभी नियम विरुद्ध बने हुए हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं सरकारी मशीनरी का भी कहना है। नियमों के विरुद्ध निर्माण करना मरीजों



के लिए बड़ी परेशानी नहीं है, परेशानी यह है कि नियमों के विरुद्ध बने अस्पतालों को किसी प्रकार की सरकारी अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। शहर के निजी अस्पतालों द्वारा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग तान दी गई है, लेकिन एक भी नगर निगम के हिसाब से नक्शे के अनुरूप नहीं बनी है।

**नक्शा गलत तो कार्रवाई क्यों नहीं**  
नगर निगम द्वारा फायर इंस्ट्रुमेंट की अनुमति नक्शे के अनुरूप भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त कर दी जाती है, लेकिन नक्शा नियमों के विरुद्ध है और नियमों के विरुद्ध ही बिल्डिंग बनी है तो आज तक किसी भी निजी अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका कोई जवाब जिम्मेदार के पास नहीं है। जब जवाब मांगा तो कहा नोटिस देकर जुर्माना लगा दिया है। हर बार जुर्माना भर दिया जाता है। जुर्माना पाकर अधिकारी चुप बैठ जाते हैं, लेकिन आज तक किसी निजी अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई।

**नगर निगम ने ठुकराए आवेदन**

वैसे तो सभी अस्पतालों में आपातकालिन स्थिति से निपटने के लिए फायर इंस्ट्रुमेंट लगे हुए हैं लेकिन वे सभी बिना अनुमति के बने हैं।

नगर निगम में सभी अस्पतालों द्वारा अनुमति के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन सभी का आवेदन निरस्त यह बोलकर कर दिया कि उनके द्वारा जो बिल्डिंग निर्मित की गई है वह नक्शे के विपरीत एवं गलत तरीके से बनाई गई है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति प्रदान नहीं जाती है। इसके लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया और जुर्माना भी नगर निगम द्वारा लगाया गया है। हर बार निजी अस्पतालों द्वारा जुर्माना भर दिया जाता है, लेकिन आज तक किसी के पास परमिशन नहीं पहुंची है।

**अनुमति देना संभव नहीं**

देवास में किसी भी निजी अस्पताल के पास फायर इंस्ट्रुमेंट की अनुमति नहीं है। सभी अस्पताल नक्शे के नियमों के हिसाब से नहीं बने हैं। नक्शे में बिल्डिंग चारों तरफ जगह छोड़ना जैसी कई खामिया पाई गई है। इसके लिए उन्हें नोटिस एवं जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका वे जवाब देकर अनुमति मांगते हैं और जुर्माना भी भर रहे हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें अनुमति प्रदान नहीं कर सकता।

**जितेंद्र सिसोदिया**, फायर अधिकारी,  
नगर निगम देवास

## किशोरी का दुष्कर्म अंतिम सांस तक रहेगा जेल में

खुलासा फर्स्ट... देवास

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेंद्र ऊर्फ राजपाल सिंह को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व अर्धदंड से दंडित किया।

राजेंद्रसिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया थाना विजयगंज मंडी में 21 दिसंबर 2020 को 14-15 साल की पीड़िता ने मौखिक बताया था मार्च 2020 में लॉकडाउन के कारण घर पर पढ़ाई कर रही थी, वर्ष 2018 में जब वह कक्षा 6वीं में आई थी तब उसने स्कूल जाना शुरू ही किया था तब ही स्कूल जाने के पांच छः दिन बाद ही आरोपी राजेंद्र ऊर्फ

राजपाल सिंह ने उसे जुलाई 2018 में बहाने से अपने घर बुलाया उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। आरोपी ने उसे बेहोश कर दिया और कपड़े उतारकर पीड़िता का वीडियो बनाया। होश आने पर आरोपी ने उसे वीडियो दिखाया और बोला किसी को कुछ बताया तो तेरे पापा को गांव से बाहर निकाल देंगे। डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दो तीन साल आरोपी वीडियो वायरल करने की धोस देकर दुष्कर्म करता रहा। 21 दिसंबर 2020 को पीड़िता को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। आरोपी ने पीड़िता के साथ उसके घर पर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती कर कई बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना विजयगंज मंडी जिला देवास में होने से असल कायमी के लिए भेजा गया। यहां पुलिस ने आरोपी पर अभियोग चलाया।

## गेहूं पर 500रु बोनस के लिए ज्ञापन



खुलासा फर्स्ट... देवास

भारतीय किसान संघ देवास द्वारा कृषि उपज मंडी में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। तत्पश्चात रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि कुछ समय पहले जो गेहूं 3000रु कुन्टल बिक रहा था वह आज आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण मण्डियों में 1700/1800 रु बिक रहा है इसलिए किसान हित में गेहूं पर 500 रु बोनस दिया

जाए। फसलों को चौपट करने वाले जंगली जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाई जाय। देवास तहसील के 32 गांव से लैंड पुलिंग एक्ट हटाकर उस पर लगे सारे प्रतिबंध 15 दिन में समाप्त करें अन्यथा भारतीय किसान संघ पुनः अनिश्चितकालीन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।

अन्य मांगें हैं सहकारी संस्थाओं की ऋण जमा करने की ड्यू डेट 15 मई की जाए, 2019 से जितने भी किसान ऋणमाफी के चक्कर में डिफाल्टर हुए हैं उनका ब्याज माफ किया जाए।

अमूल्य है योग : अयोध्या तक दौड़कर दे रहे संदेश

## योगगुरु बैरागी रोज दौड़ रहे 50 किमी, आरोग्य केंद्र की कामना

खुलासा फर्स्ट... देवास

भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय खुद के लिए निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही लोगों ने छोड़ दिया है। लगातार पनप रही नई-नई बीमारियों का एक कारण यह भी है कि लोगों शरीर पर ध्यान देना बंद कर दिया। देवास के योगगुरु राजेश बैरागी देश के युवाओं को योग का संदेश देने एवं देवास में आरोग्य केन्द्र बनाने की कामना के लिए दौड़कर अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनकी दौड़ हर वर्ग के लोगों के लिए है, जिसके माध्यम से वे योग की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं।



रोजाना दौड़ रहे 50 किमी

योग से कोई भी दौड़ सकता है इतना

योगगुरु श्री बैरागी द्वारा 8 मार्च को दौड़ प्रारंभ की थी, जो कि अयोध्या में ही समाप्त होगी। वे रोजाना 50 किमी दौड़ रहे हैं, जहां भी वे रुकते हैं योग एवं प्रवचन का आयोजन होता है। उनका कहना है कि इस दौड़ के माध्यम से युवाओं और समस्त विश्व को यह बताना है कि योग केवल रोगों से मुक्ति और रोगों को दूर करने तक सीमित नहीं है, योग से अंतहीन सामर्थ्य प्राप्त होता है। योग क्रियाओं का प्रतिदिन अभ्यास करने से मनुष्य कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। युवाओं को आज अपने कैरियर निर्माण के लिए पहली प्राथमिकता दौड़ ही होती है, वह चाहे पुलिस भर्ती हो या सेना भर्ती पहले दौड़ ही आवश्यक होती है।

उन्होंने बताया योग करने वाला आसानी से 50 किमी रोजाना दौड़ सकता है। योगगुरु बैरागी ने बताया कि उन्हें शहर में योग प्रशिक्षण देने के लिए दिव्य योग संस्थान का संचालन करते हैं। उनके यहां कई लोग प्रतिदिन योग करने पहुंचते हैं। वे देवास में आरोग्य केन्द्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि देवास का नाम योग के लिए ऊंचाई तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि गत दिवस छिंदवाले बाबा के दर्शन के लिए गए थे। वहीं से यह प्रेरणा मिली कि आरोग्य केन्द्र का कार्य रामजी कराएंगे। इसी कामना ये अयोध्या तक दौड़कर जा रहे हैं।



## खाद्य उत्पाद में मोटा अनाज ज्यादा, तो जीएसटी होगा कम

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पैल मोटे अनाज पर आधारित उत्पादों के वर्गीकरण की योजना बना रहा है, जिससे उन पर लागू कर की दरों का निर्धारण किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक केंद्र व राज्यों के अधिकारियों से बना फिटमेंट पैल उन उत्पादों का वर्गीकरण करेगा, जिसमें मोटे अनाज की प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया है।

गौरतलब है कि इस समय मोटे अनाज पर आधारित किसी खाद्य उत्पाद को जीएसटी के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इस तरह के उत्पाद पर इस समय शेष प्रविष्टि के तहत 18 प्रतिशत कर लगता है। जानकार सूत्रों ने बताया कि हेल्थ मिक्स में पैल मोटे अनाज व अन्य तत्वों का अनुपात देखेगा और इस आधार पर आकलन किया जाएगा कि वर्गीकरण के तहत वह उत्पाद किस श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि इस समय मोटे अनाज पर आधारित स्वास्थ्य उत्पादों में कम मात्रा में आटा, मूंगफली पावडर, दाल आदि होता है, जिसे मिलेट्स की तरह ही भूना जाता है। वहीं इलायची, काली मिर्च जैसे कुछ मसाले भी स्वाद के लिए डाले जाते हैं। इन सभी उत्पादों को मिलाकर पावडर बनाया जाता है और उसे बिक्री के लिए डिब्बाबंद किया जाता है।



### मोटे अनाज आधारित उत्पादों पर जोर

बता दें कि मई के अंत या जून में संभावित जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तावित वर्गीकरण पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों इस सेगमेंट पर दांव लगा रही हैं और मोटे अनाज पर आधारित स्वस्थ खानपान के विकल्प के रूप में इसे पेश कर रही हैं। सरकार द्वारा मोटे अनाज पर आधारित उत्पादों पर जोर देने के बाद कंपनियों क्षेत्र में उतर रही हैं। इससे इस तरह के अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है।

## सोना चांदी में और तेजी आई मसूर में भी बढ़त

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

तेल बाजार (प्रति 10 किलो) - मूंगफली तेल इंदौर 1700 - 1720 मुंबई 1705 - 1710 गुजरात 1690 - 1700 सोया रिफाईंड तेल इंदौर 1035 - 1040 सोया सॉल्वेंट 1000 - 1005 सोया डीगम 950 - 955 मुंबई सोया रिफाईंड तेल 1035 - 1040 इंदौर पाम ऑइल 1003 - 1005 मुंबई पाम ऑइल 950 - 955 गुजरात कपास्या तेल 930 - 935 रुपए। राजकोट तेलिया मूंगफली तेल 2690 - 2700 रुपए प्रति 15 किलो पैक।

छावनी मंडी - दलहन भाव (प्रति क्विंटल) - चना कांटा 5150 - 5200 विशाल चना 4800 - 4900 काबुली बिटकी एवरेज चना 6000- 6500 बेस्ट 7200- 8000 काकटू 6300 - 6800 डॉलर चना 8800 - 9600 मसूर 5875 - 5900 मूंग एवरेज बेस्ट 6700 - 8100 उड़द बेस्ट - 7000 - 7400 एवरेज मीडियम उड़द 4500 - 6600 हल्की उड़द 3000 - 4000 तुअर महाराष्ट्र संफेद 7700 - 7900 कर्नाटक 8000 - 8200 तुअर निमाड़ी 7100 - 7800 रुपए।

तिलहन भाव (प्रति क्विंटल) - सोयाबीन हल्की 4800 - 5000 बेस्ट 5300 - 5325 सरसों निमाड़ी 5900 - 6200 रायडा 4500 - 4700 रुपए क्विंटल।

दाल भाव (प्रति क्विंटल) - तुअर दाल



फूल एवरेज मीडियम बेस्ट 10100 - 10200 तुअर दाल सवा नंबर 9800 - 9900 चना दाल मीडियम बोल्ड 6000 - 6600 एक्स्ट्रा बोल्ड 7200 मसूर दाल मीडियम बेस्ट 7200 - 7300 मूंग दाल मीडियम बेस्ट 9200 से 9300 मूंग मोगर मीडियम बेस्ट 9600 से 9700 उड़द

### इंदौर सराफा बाजार

सोना 58700  
रुपए 10 ग्राम

चांदी 67700  
रुपए किलो

चांदी सिक्का 750 रुपए नग

सोना 1982 डॉलर प्रति औंस

चांदी 2256 सेंट प्रति औंस

दाल मीडियम बेस्ट 9100 - 9400 उड़द मोगर मीडियम बेस्ट 10000 से 10500 रुपए प्रति क्विंटल।

चावल भाव (प्रति क्विंटल) - बासमती (921) 10500 से 11500 तिबार 8500 से 9500 मिनी दुबार 6500 से 7500 दुबार पोनिया 7500 - 8500 मोगरा 4000 से 6000 बासमती सैला (क्वालिटीनुसार) 7500 से 9500 कालीमूंड डिनर किंग 7900 से 8000 राजभोग 6900 से 7000 दूबराज 3500 से 4000 परमल 2560 से 2700 हंसा संफेद 2450 - 2500 पोहा किस्मनुसार 4200 - 4600 रुपए प्रति क्विंटल।

सियागंज थोक किराना बाजार - शकर 3550-3570 रुपए क्विंटल।

सूखे मेवे (प्रति किलो) - काजू (सभी वैरायटी) 665 - 810 काजू टुकड़ी 655 - 675 बादाम एवरेज बेस्ट 550 - 635 किशमिश कंधारी 350 - 500 बेस्ट 450 - 650 इंडियन 210 - 265 अंजीर एवरेज मीडियम 650 - 750 बेस्ट 1100 - 1375 मनुक्का एवरेज मीडियम 425 - 575 बेस्ट 675 - 700 मखाना एवरेज बेस्ट 425 - 550 मोटा पिस्ता एवरेज बेस्ट 1650 - 1800 नमकीन पिस्ता 950 - 1100 अखरोट (एवरेज बेस्ट 385 - 600 जर्दालू (एवरेज बेस्ट) 250 - 500 रुपए किलो। मावा - 320 रुपए किलो।

## एचडीएफसी बैंक और फिलपकार्ड का सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लांच

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एचडीएफसी बैंक, भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक और फिलपकार्ड होलसेल, भारत में जन्मे फिलपकार्ड समूह का सर्व-माध्यम व्यापार से व्यापार प्लेटफॉर्म, विस्तृत ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थिति के साथ, अब लेकर आए हैं इंडस्ट्री का प्रथम सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड खास फिलपकार्ड होलसेल सदस्यों के लिए। क्रेडिट कार्ड डाइनर्स क्लब अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, डिस्क्वर ग्लोबल नेटवर्क के हिस्से

पर भी काम करता है और 200 से अधिक देशों में प्रयोग किया जा सकता है, जहां डाइनर्स क्लब के कार्ड स्वीकार्य हैं। इस समझौते के तहत, फिलपकार्ड होलसेल के पंजीकृत सदस्य फिलपकार्ड होलसेल ऑनलाइन खर्च पर 5 फीसद कैशबैक का लाभ उठा सकेंगे, जो इंडस्ट्री का प्रथम ऑफर है। अन्य लाभों में शामिल हैं 1,500 रुपए का सक्रिय कैशबैक, शून्य जॉइनिंग शुल्क के साथ, साथ में अतिरिक्त कैशबैक, बिल भुगतान और अन्य खर्चों पर दिया जा रहा है।

## रबी उपार्जन कार्य की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव की अध्यक्षता में इंदौर संभाग में रबी उपार्जन कार्य की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उमराव ने निर्देश दिए कि भंडारण क्षमता अच्छी रखें, उपार्जन केंद्र पर्याप्त हों, बारदाने की कहीं भी कमी न हो, किसान को समय पर राशि का भुगतान किया जाए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग में रबी गेहूँ के उपार्जन की अवधि 25 मार्च से 10 मई तक रहेगी। गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बताया गया कि इंदौर संभाग में रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में गेहूँ का रकबा 1208391 हेक्टेयर था, वहीं 2023-24 में रकबा बढ़कर 1236115 हेक्टेयर हो गया है। सर्वाधिक वृद्धि खरगौन जिले में हुई है। बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर संभाग के पंजीकृत किसानों के सत्यापन में 74 प्रतिशत किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। संभाग में कुल 88630 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 66011 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।

24 घंटे 365 दिन  
**खुलासा फर्स्ट**  
पक्का इंदोरी अखबार

अब आप बच्चों के जन्मदिन की खुशियां बांट सकते हैं आपके अपने अखबार **खुलासा फर्स्ट** के साथ **नि:शुल्क**

संपर्क करें:- 88189-56789, 0731-4046789  
आप हमें E-Mail भी कर सकते हैं  
khulasafirst@gmail.com

Contact Us: f 7900299047  
**MAGIC SHOW**  
FULL ENTERTENMENT

**JADUGAR DEVSHREE**

CHARITY, SCHOOL, BIRTHDAY PARTY, CORPORATE PUBLIC CITY, AWARENESS & BIG STAGE MAGIC SHOW

24 घंटे 365 दिन  
**खुलासा फर्स्ट**  
पक्का इंदोरी अखबार  
**CLASSIFIED**  
ऑनलाइन बुक करें:- 88189-56789

**स्कैप खरीदना है**  
सभी प्रकार का स्कैप खरीदा जाता है  
लोहा, भंगार, एल्युमीनियम, पीतल, तांबा, सभी प्रकार की मशीनरी, शटर, चैनल गेट, प्लास्टिक, पेपर की रद्दी और सभी प्रकार का स्कैप  
थोक और रिटेल दोनों अच्छी कीमत पर बेचने के लिए संपर्क करें-  
संपर्क: 98935 03317  
98264 89441 (6102)

**सरकार फाइनेंस सर्विस**  
होम लोन, लोन अगेन्स प्रॉपर्टी, न्यू कार लोन, सेकंड कार लोन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन, मुद्रा लोन-सभी प्रकार के लोन करवाये जाते हैं।  
**लक्ष्मी फाइनेंस & डेली कलेक्शन**  
संपर्क: कमल वर्मा 81090 33000

**INDIAN CAR BAZAR**

श्री वालाजी कार  
श्री वैष्णव

**SALES & PURCHASE OF 4 WHEELERS ON COMMISSION BASIS**

10, Indrashree Complex, Navlakha, Indore  
Mo.: 94250 60170, 99810 60170, 94250 66625, 99774 80176  
Email: indiancarbazar87@gmail.com • www.indiancarsbazar.com

**जाहिर सूचना**  
अब खुलासा फर्स्ट अखबार में जाहिर सूचना दीजिए मात्र  
**₹ 500** में  
स्टैंडर्ड साइज 1 कॉलम 6 सेमी.  
संपर्क करें:- 88189-56789, 0731-4046789  
आप हमें E-Mail भी कर सकते हैं  
khulasafirst@gmail.com



## एक नजर में....

शादी करने का वादा कर  
युवती से दुष्कर्म

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। एक शादीशुदा युवक ने अपने आपको कुंवारा बताकर युवती को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। राऊ थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी कुछ साल पहले दीपक चावड़ा निवासी किशनगंज से दोस्ती हुई थी। इस दौरान दीपक ने खुद को कुंवारा बताकर शादी का वादा कर पांच साल तक शारीरिक संबंध बनाए। जब शादी करने को कहा तो आरोपी अपनी बात से मुकर गया। इस दौरान दीपक ने उसकी ज्वेलरी भी बेच दी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वहां से उसका काम भी छुड़वा दिया। पुलिस अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।

युवती को संसारा पीटा... एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने एक युवक के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह किसी काम से संजय गार्डन के सामने से जा रही थी तभी आरोपी राहुल आया और उसके दोस्त के बारे में पूछने लगा। इस पर उसने कारण पूछा तो राहुल ने बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल तोड़कर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया।

## ड्राइवर के खिलाफ गैर

## इरादतन हत्या का केस दर्ज

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। लसूडिया पुलिस ने एक ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। फरियादी हनी यादव ने शिकायत दर्ज कराई कि 18 जनवरी को वह कार (क्रमांक-एमपी 09 सीटी 0700) से देवास से इंदौर वापस आ रहे थे। ड्राइवर ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर एक खंभे में टॉक दी, जिसके चलते उनके मुंह में गंभीर चोटें आईं और तनुप्रिया ठाकुर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

## दुकान का ताला तोड़ हजारों

## रुपए का माल चुराया

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। चोरों ने तिलक नगर थाना क्षेत्र के सविद नगर में दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिए। फरियादी नेहा निवासी रतलाम कोठी ने पुलिस को बताया कि कल उनकी दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने दुकान में रखा माल चुरा लिया। बदमाशों ने उनकी पहचान उजागर न हो इसके लिए दुकान में लगे सीसीटीवी तक चुरा लिए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

## बैंक में गिरवी रखा प्लॉट

## बेचकर की धोखाधड़ी

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने बैंक में गिरवी रखा प्लॉट बेचकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर दी। फरियादी कौस्तुभ निवासी पुणे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने आरोपी इंद्रकांत से महादेव तोतला नगर में एक प्लॉट का सौदा किया था, जिसके एवज में उसने बदमाश ने लाखों रुपए ले लिए। जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो उन्हें पता लगा कि आरोपी ने पहले ही इस प्लॉट को बैंक में गिरवी रख रखा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

## बैंक खाते से उड़ाए हजारों रुपए

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। साइबर ठगी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। कल एक व्यक्ति के बैंक खाते से ठगोरे ने हजारों रुपए निकल लिए। फरियादी दिलीप निवासी नया बसेरा छोटी खजरानी ने एमआईजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया एक अज्ञात बदमाश ने उनके खाते से दो बार में तकरीबन 60 हजार रुपए निकाले। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

पति जन्मदिन मनाकर लौटा  
तो खून से सनी मिली पत्नी

मृतका गुंजन

## खुलासा फर्स्ट... इंदौर

अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के समय पति बच्चे और अपनी मां को लेकर जन्मदिन मनाने गया था। घर लौटा तो पत्नी खून से लथपथ थी। पति का जन्मदिन होने के बाद भी महिला किस कारण घर रुकी थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।

जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर में रहने वाली गुंजन पति हिमांशु लांभाते को पति बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई अक्षय के मुताबिक उसे जीजा हिमांशु ने बताया कल उसका जन्मदिन था, जिसके चलते वह बहन को घर छोड़कर दो साल के बच्चे और मां को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया था। रात 10 बजे जब वह घर पहुंचा तो गुंजन ने दरवाजा नहीं खोला, जिस पर वह दरवाजा तोड़कर अंदर गया, जहां उसने देखा कि गुंजन फर्श पर पड़ी है और उसके सिर और नाक से खून निकल रहा था। जिसके बाद जीजा उसे अन्नपूर्णा स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, यहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने गुंजन को मृत घोषित कर दिया।

## युवक की संदिग्ध मौत

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में कल रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम मनोज पिता मनाराई (32) निवासी जवाहर टेकरी है। जानकारी के अनुसार मनोज का शव पंढरीनाथ थाना क्षेत्र के मच्छी बाजार में मिला। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया। शव पर चोट के निशान हैं। मामले में पंढरीनाथ पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

## शराब के लिए रुपए न देने पर चाकू मारे

## खुलासा फर्स्ट... इंदौर

शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक को बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। फरियादी रितिक चौहान निवासी विनोबा नगर न्यू पलासिया ने बताया कि आरोपी मनीष कैथवास उससे शराब पीने के लिए 200 रुपए मांगने लगा। जब उसने रुपए देने से मना किया तो आरोपी चाकू मार जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

## मकान मालिक ने किराएदार को चाकू मारा

बाणगंगा क्षेत्र में एक मकान मालिक ने किराएदार को चाकू मारकर घायल कर दिया। फरियादी हेमंत यादव निवासी नंदनगर ने पुलिस को बताया कि उसके मकान मालिक रूपेश से मकान खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था। मकान खाली करने की बात को लेकर रूपेश ने उसे चाकू मार घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

भाई का आरोप बहन के  
साथ हुई है घटना

अक्षय का आरोप है कि उसकी बहन के साथ कोई घटना हुई है। जब जीजा का जन्मदिन था तो बहन ही क्यों जन्मदिन मनाने न जाते हुए घर पर रुकी और जीजा उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। जब वह जीजा के घर पहुंचा तो किचन, फर्श, खिड़की व वहां पड़े एक कपड़े पर खून लगा मिला, जिससे उसे लगा की बहन के साथ कोई घटना हुई है। मामला संदिग्ध लगने पर वह सीधे अन्नपूर्णा थाने पहुंचा और जानकारी दी। भाई की रिपोर्ट पर अन्नपूर्णा पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामला संदिग्ध लगने पर कमरा सील कर दिया। जिस कमरे में घटना हुई वहां कई जगह खून के निशान मिले हैं। अन्नपूर्णा टीआई गोपाल परमार के मुताबिक मामला संदिग्ध है। मर्ग कायम कर घटना स्थल वाला कमरा सील कर जांच शुरू कर दी है।

## भंगार चुराते रंगेहाथ पकड़ा

## खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एक बदमाश को भंगार चुराते हुए रंगेहाथ धरदबोचा। लसूडिया निवासी मनमोहन सिंह राजावत ने गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कर बताया कि आरोपी राहुल निवासी झलारिया कनाडिया कल सुपर कॉरिडोर स्थित उनकी कंपनी से लोहे के टुकड़े व अन्य सामान चुरा रहा था। इसी दौरान कंपनी के सुपरवाइजर शुभम ने देखा और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

साले ने माना  
संदिग्ध मौत,  
पुलिस ने सील  
किया कमरा

बुजुर्ग सहित दो युवाओं  
ने फांसी लगाई

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। शहर में लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कल फिर शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक बुजुर्ग सहित दो युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीनों मामलों में पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रोहित पिता त्रिलोक 20 निवासी स्वर्ण बाग कॉलोनी को कल रात परिजन बेहोशी की हालात में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

रोहित के पिता के मुताबिक कल रात रोहित होटल से खाना लेकर आया था, जिसे घर पर खाना पहले से बना होने की बात कही, जिस पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक वह बेलदारी करता था। वहीं खजराना क्षेत्र की ही विष्णुधाम कॉलोनी में रहने वाले 60 वर्षीय महान गोयल ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। दोनों ही मामलों में खजराना पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। एक अन्य आत्महत्या का मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर में सामने आया है, जहां रहने वाले राधेगोविंद पिता कमलदास छापरे (21) ने फांसी लगा ली। परिजन के मुताबिक वह हरदा जिले का रहने वाला है और इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर हीरानगर क्षेत्र में किराए से रह रहा था। हीरानगर पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है।

## सूने मकान से लाखों का माल चोरी

एमआईजी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सूने मकान पर धावा बोला और लाखों रुपए का माल चुरा ले गए। पुलिस के मुताबिक राजेश निवासी संजय गांधीनगर ने बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गए थे। इसी बीच बदमाशों ने घर का ताला तोड़ लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया।

24 घंटे 365 दिन  
**खुलासा फर्स्ट**  
पक्का इंदौरी अखबार

इंदौर की  
**हर खबर** के लिए  
**स्कैन करें**

Whatsapp Group में जुड़ें

24 घंटे 365 दिन  
**खुलासा फर्स्ट**  
पक्का इंदौरी अखबार

खुलासा फर्स्ट का 88189 56789 नंबर  
अपने मोबाइल में सेव कर वाट्स एप पर  
खुलासा फर्स्ट लिखकर भेज दीजिए...

आप चाहे तो आपके वाट्स एप ग्रुप में भी  
88189 56789 नंबर जोड़ सकते हैं...

अखबार की पीडीएफ और ब्रेकिंग  
खबरें मिलती रहेगी...

खुलासा फर्स्ट में विज्ञापन एवं खबरों के  
लिए संपर्क करें-

88189 56789



**एक नजर में....**

**ड्राइवर ने चुराया 4 लाख रु. से भरा बैग**

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | एक फैक्ट्री मालिक ने ड्राइवर के खिलाफ बाणगंगा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी विशाल जोशी निवासी कंचन बाग ने पुलिस को बताया उनकी मेटल फ्रॉक के नाम से सांवेर रोड पर फैक्ट्री है। कल वह बैग में 4 लाख रुपए रखकर ड्राइवर आरोपी राजेंद्र पंडित के साथ फैक्ट्री गए थे। वहां कुछ देर बाद गाड़ी के पास लौटते तो देखा रुपए से भरा बैग नहीं था। उन्होंने फैक्ट्री के सीसीसीवी चेक किए तो उसमें राजेश पंडित रुपए से भरा बैग चुराते दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

**घर में घुस छेड़छाड़**

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | रावजी बाजार थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती के घर में घुस कर पड़ोसी ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया रसोई में खाना बना रही थी तभी आरोपी टोल्ू यादव घुस आया और हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर भाई आ गया जिससे आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

**लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे**

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | आंखों में मिर्ची झाँक कर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिप्रा थाने में फरियादी मुकेश पटेल ने शिकायत दर्ज कराई कल वह शिप्रा चौराहा स्थित झंवर शोरूम के सामने से गुजर रहा था। तभी आरोपी जितेंद्र राठौर आया और आंखों में मिर्ची पाउडर झाँककर 10 हजार रुपए लूट कर भाग गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ कर अन्य मामलों का खुलासा करने में जुटी है। उसे उम्मीद है लूट के अन्य मामलों में भी उसका हाथ हो सकता है।

**50 साल बाद मिले 1970-73 बैच के पुलिस अधिकारी**

**बिछड़े अफसर बरसों बाद मिले, फिर बिछड़े**

**साथ में ट्रेनिंग और पढ़ाई करने वाले अफसरों ने जमकर मौज-मस्ती की**  
खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मप्र और छत्तीसगढ़ के रिटायर पुलिस अफसर हाल ही में सागर में आयोजित एलुमिनाई में मिले। साथ में ट्रेनिंग और पढ़ाई करने वाले इन अफसरों ने न केवल जमकर मौज-मस्ती की, बल्कि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान साथ बिताया शानदार समय भी याद किया। करीब पांच दशक पहले बिछड़े ये अफसर बरसों बाद मिले। 28 फरवरी से 2 मार्च तक हुए तीन दिनी कार्यक्रम में सपत्निक पहुंचे अफसरों ने जमकर मस्ती की



**एकदूजे को देख हुए भावुक, पुरानी यादें ताजा कीं**

एडीजी अनुराधा शंकर रिटायर्ड एस्प्री राजेश जायसवाल और आरती जायसवाल को स्मृति पिह्न से सम्मानित करते हुए।

बाद फिर अच्छी यादें लेकर बिछड़े बाद मिले कई अफसर एक-दूसरे को गए। हालांकि कार्यक्रम में लंबे अरसे पहचान नहीं पाए।

सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है। वर्तमान में अकादमी प्रमुख अतिरिक्त जनरल पुलिस अनुराधा शंकर (आईपीएस) हैं। अनुराधा शंकर और उनकी टीम ने हाल में अकादमी में अविभाजित मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले) की 1970 और 1973 बैच के रिटायर पुलिस अधिकारियों का मिलन समारोह आयोजित किया था।

पचास वर्षों बाद हुए इस रंगारंग कार्यक्रम में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बड़े उत्साह व उल्लास के साथ शामिल हुए। तीन दिन के कार्यक्रम में अधिकारियों ने बहुत मौज मस्ती की। उस्तादों की डॉट फटकार, परेड, पीटी, फटीक की पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस दौरान सभी भावुक भी हुए। कार्यक्रम को को-ऑर्डिनेट करने में पुलिस अधिकारी नरेंद्र सक्सेना का महत्वपूर्ण रोल रहा। इंदौर के रिटायर्ड पुलिस अफसर राजेश जायसवाल के अनुसार आयोजन बहुत भव्य, मनोरंजक और यादगार था। सभी साथियों ने एक दूसरे को बहुत ही प्रेम-आदर सम्मान दिया। वो बीते तीन दिन हम सभी जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। बिछड़े साथियों का बरसों बाद मिलना फिर बिछुड़ना अविस्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर से अन्य पुलिस अधिकारी अशोक सोलंकी, भारतेंदु सालुंके, दिलीपराव ताम्बे, एनएस जादौन, बलदेवसिंह ठाकुर और प्रमोद शिंदे आदि गए थे।

**रुपए देकर बढ़वाता है डमी फॉलोअर्स**

**ओए इंदौरी ने पीड़िता को दी थी खुदकुशी करने की धमकी**

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

रोबिन जिंदल उर्फ ओए इंदौरी पर जिस युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उस युवती को रोबिन के दोस्तों ने भी अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना दी है। रोबिन की दोस्त अलीशा राजपूत ने पीड़िता को कई बार फोन कर एफआईआर नहीं करने को लेकर धमकाया। अलीशा राजपूत ने कहा कि वे लोग इनफ्लूएंसर है और उनके कई फॉलोअर्स हैं। हम यदि तुमने हमारा कुछ बुरा किया तो तुम भी नहीं बचोगी। रोबिन मुझसे शादी करेगा तुम बीच में कहां से आ गईं। जबकि पीड़िता का दावा है कि वह अलीशा राजपूत के पहले से ही रोबिन के साथ रिलेशनशिप

में थी। शादी को लेकर उसकी मुलाकात रोबिन के माता-पिता से भी हो चुकी थी। यही नहीं रोबिन के अन्य दोस्त सोनू ने पीड़िता को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी। लेकिन इनकी धमकियों से भी वह नहीं घबराई, वह रोबिन के खिलाफ एफआईआर कराने को अड़ी रही। लेकिन थाने में पुलिसकर्मियों के सामने ही रोबिन ने एफआईआर होने पर खुदकुशी करने की धमकी पीड़िता को दी थी, जिस पर पुलिसकर्मियों ने भी पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाने के केस में फंसने की बात कह कर डराया, जिसके बाद पीड़िता ने रोबिन के खिलाफ एफआईआर नहीं की। एफआईआर नहीं करने को लेकर पीड़िता के मानते ही एप्रीमेंट बनवाकर दोनों का समझौता करवा दिया गया।



**रुपए देकर बढ़वाए फॉलोअर्स**

ओए इंदौरी रोबिन जिंदल के बारे में जानकारी मिली है कि इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए वह एजेंसी की मदद लेता है। उसका मैनेजर आशू गांधी इस तरह की एजेंसी से मदद लेता है जो डमी फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए बकायदा रुपए भी खर्च किए जाते हैं। फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने के बाद कमाई भी बढ़ जाती है।

**सुपर कॉरिडोर पर बदमाशों ने मचाया आतंक**

**ट्रक रोककर कांच फोड़े, पुलिस ने नहीं दिखाई गंभीरता**

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

सुपर कॉरिडोर पर देर रात बदमाशों ने कई गाड़ियों को रोककर सड़क पर उत्पात मचाया, एक ट्रक में लगे डेश-बोर्ड कैमरे में उनकी हरकत कैद हो गई। गुंडागर्दी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे ट्रक चालक की कोई सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान से पूर्ण, महाराष्ट्र ट्रक (एमएच-18-बीजी-1975) लेकर जा रहे मालिक व ड्राइवर गुरुजीतसिंह ने बताया कि गुरुवार रात 11.27 बजे लवकुश चौराहे से सुपर कॉरिडोर की ओर बढ़ा तो सड़क किनारे एक कार खड़ी थी। नशे में धुत चार लोग गाड़ी से बाहर आकर वहां से गुजर रही गाड़ियों



को रोककर हंगामा कर रहे थे। गाड़ी के सामने आकर वह बोले गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाओ। इस बीच एक बदमाश ने लोहे के सिरिये से कांच फोड़ दिया, एक ने

वाइपर तोड़ दिया। काफी मान-मनौवल कर वहां से निकल पाए। सारी घटना डैश कैमरे में रिकार्ड हो गई। पुलिस वाले बोले गाड़ी ऊपर चढ़ा देते एरोड्रम थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों को सारी घटना बताई तो वह बोले गाड़ी चढ़ा देना थी उन पर, साथ ही इलाका बाणगंगा थाने में आने की बात कहकर वहां जाने को कह दिया। बाणगंगा थाने पहुंचने पर कहा गया, अदम चैक काट देते हैं, तुम्हें क्लेम मिल जाएगा। पुलिस ने रिकार्डिंग लेकर बदमाशों की तलाश का कोई प्रयास नहीं किया। इस मामले में एरोड्रम और बाणगंगा थाने की ओर से कोई जानकारी नहीं होने की बात कही गई।



**साढ़े चार लाख लोगों ने देखा वीडियो**

ट्रक मालिक ने वीडियो यू-ट्यूब चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी पर डाला और कहा कि इंदौर शहर सफाई में भले ही नंबर-1 है, लेकिन सुरक्षा के मामले में काफी पीछे है। यहां की पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर अब तक इस वीडियो को साढ़े चार लाख लोगों ने देखा है।



आयकर के रडार पर

# बड़ा सट्टेबाज

जेल में बंद सरगना से हो चुकी पूछताछ... जिनके खातों में गए सट्टे के करोड़ों रुपए उनसे पूछताछ कर रही टीम



मुकेश गुवाल

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

महू का बड़ा सट्टेबाज लोकेश उर्फ राजा वर्मा आयकर विभाग भोपाल की एक विंग के रडार पर है। ये सट्टेबाज पिछले साल पिगडंबर (किशनगंज) में हुए भाजपा नेता के बेटे के हत्याकांड में जेल में है। विंग की टीम ने उससे जेल में जाकर पूछताछ करने के साथ उन लोगों को भी समझा जरी कर पूछताछ के लिए बुलावाया है, जिनके खातों का उपयोग सट्टेबाज ने कालेधन को सफेद करने के लिए किया। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग भोपाल विंग की एक टीम ने 10 दिन में इंदौर-भोपाल के कई लोगों को नोटिस भेजे हैं। सभी को इंदौर आयकर विभाग इंदौर के कॉन्फ्रेंस हाल में पूछताछ के लिए बुलाया है।

समझ भेजकर बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई में उपस्थित होने को कहा है। साथ में बैंक खातों की पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज लाने को कहा है। दरअसल ये सब विंग की टीम करीब दो साल पहले सट्टेबाज गिरोह के सरगना राजा उर्फ लोकेश वर्मा (महू) के मामले में कर रही है। लोकेश वर्मा ने कई लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल सट्टे की रकम के लेनदेन के लिए किया था। करीब 45 लोगों की जानकारी विंग को है।

**ये था मामला...** करीब दो साल पहले तत्कालीन डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देश पर तात्कालीन एडिशनल एसपी (महू) अमित तोलानी सहित दो अन्य आईपीएस पुनीत गहलोत और अभिनव विश्वकर्मा की टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह के सरगना राजा उर्फ लोकेश वर्मा (महू),

## गरीबों को दुकान व लोन दिलाने के बहाने हथियाए दस्तावेज

आरोपी लोकेश उर्फ राजा वर्मा ने सट्टे के कारोबार के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए महू-इंदौर के गरीब व मजदूर परिवार के लोगों को दुकान लोन के नाम पर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मंगवाकर, गुमराता लाइसेंस बनवाए। इन्हीं के दस्तावेजों से व्यापारी फर्म बनाकर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए। आरोपियों से 16 फर्जी खातों की जानकारी मिली है।

मनोज मालवीय, विकास यादव, जितेंद्र लौवंशी, हेमंत गुप्ता, सोनू गुप्ता, पलाश अभिचंदानी, शुभम और मुकेश अभीचंदानी सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। राजा वर्मा के तार बेंगलुरु के बड़े बुकी के जरिए दुबई के बड़े सट्टा किंग से जुड़े थे। इनसे 1 करोड़ 31 लाख 66 हजार 623 रुपए मिले थे। इसके अलावा को-ऑपरेटिव बैंक के खातों में जमा करीब डेढ़ करोड़ की राशि पुलिस ने फ्रीज कराई थी। गिरोह द्वारा छह महीने में ही 53 करोड़ 23 लाख 70 हजार 417 रुपए का ट्रांजेक्शन किए जाने की बात सामने आई थी। इंटरपोल और आईबी तक ने मामले की जांच की थी। इसमें पालदा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनोज उर्फ मोंटी मालवीय से दस लाख रुपए में धन गेम और धन कुबेर नाम से सट्टे का एप तैयार किया था। लोकेश और मनोज शहर के कई बड़े शकर, तेल, किराना व अन्य कारोबारियों अपने कारोबार में शामिल कर चुके थे। फर्जी फर्म बनवाकर शकर, तेल आदि की खरीदी बताकर उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर देते थे। फिर निकाल लेते थे। इसकी वे जीएसटी भी कटवा रहे थे। बदले में उन्हें दो प्रतिशत कमीशन देते थे। कई व्यापारियों ने कमीशन के लालच में सट्टे के काले धन को सफेद करने में भूमिका निभाई है।

प्रशासन ने दबंगों का घर, बाड़ा तोड़ा

## दबंगों के प्राणघातक हमले में घायल बुजुर्ग की मौत



खुलासा फर्स्ट... इंदौर



गौतमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कालवा में खेत जोतने गए एक दलित परिवार पर गुरुवार दोपहर क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तलवार, कुल्हाड़ी, फालिए, डंडे से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनमें से एक घायल बुजुर्ग की कल शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद कल ग्रामीण एसपी, एडीएम, एसडीओपी देर रात भारी बल के साथ गौतमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम खमलाल पहुंचे और दबंगों का साम्राज्य नेस्तानाबूत कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम शांतिलाल पिता मायाराम (40), मेहरबान पिता मायाराम (35), मायाराम पिता भगवान सिंह (60), संजूबाई पति मेहरबान (40), संगीता पति शांतिलाल (35) सभी निवासी खमलाल देपालपुर, हुकुम पिता ब्रजलाल (55) निवासी ग्राम बनेड़िया व रमेश पिता मन्नाजी (62) निवासी ग्राम मुंडला को गंभीर हालात में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां कल शाम इलाज के दौरान मायाराम की मौत हो गई। मामले में गौतमपुरा पुलिस ने मायाराम की मृत्यु के पहले, पहले तो घटना के समय लापरवाही दिखाई थी। घटना क्रम बड़ा होने के बाद भी क्रॉस कायमी कर मामला ठंडे

## प्रशासन ने दी आर्थिक मदद

**इंदौर।** दलित मायाराम की कल रात एमवाय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होने के बाद हंगामा हुआ। मायाराम बागरी की मौत के बाद अभा बलाई महासभा के अध्यक्ष मनोज परमार और नरेंद्र बागरी एमवाय अस्पताल पहुंचे। यहां मौत के बाद दलितों में जबर्दस्त रोष था। परमार ने तत्काल एसपी ग्रामीण भगवंतसिंह बिरदे व डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी से बात की और मृतक के परिजन को एक करोड़ रुपए की सहायता और एक परिजन को शासकीय नौकरी देने की मांग की। इसके बाद एमवाय अस्पताल पहुंचकर अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने मृतक के परिजन को 50 हजार और घायलों को 20-20 हजार रुपए की तुरंत आर्थिक मदद दी। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

बस्ते में डाल दिया था, लेकिन गौतमपुरा पुलिस का यह पैतरा मायाराम की मौत से फेल गया। मामला आला अधिकारियों की जानकारी में आने व दलित नेताओं के हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दो आरोपियों बाबू राजपूत और पवन को गिरफ्तार कर लिया है।

एमसी स्टेन के आयोजन में हंगामा, मंच छोड़कर भागा बिग बॉस विनर

## हिंदू संगठन और करणी सेना ने किया अश्लील गानों का विरोध

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

इंदौर में कल रात जॉर्डिन होटल में बिग बॉस विनर एमसी स्टेन के आयोजन में अश्लील रेप गाते ही मौजूद हिंदू संगठन और करणी सेना के पदाधिकारियों ने मिलकर विरोध किया और मंच पर जा पहुंचे, इससे पहले ही एमसी स्टेन मंच छोड़कर भागा गया।

करणी सेना जिला उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह सोलंकी ने बताया कि आयोजन संचालक और होटल प्रबंधक को पहले से अश्लील गानों की प्रस्तुति ना करवाने की चेतावनी दे दी थी। इसके बावजूद युवाओं के बीच इस तरह का आयोजन कर समाज के युवावर्ग को गलत दिशा में धकेला जा रहा है, जबकि आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चों सहित माता बहनें मौजूद थीं। हालांकि हंगामे के बाद शो तय समय से पहले बंद हो गया। शो में भारी



तादात में युवाओं की भीड़ पहुंची थी, हंगामा शुरू होने पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। होटल के मेनेजट पर लगे गमले भी तोड़ दिए गए। गौरतलब है कि स्टेन अश्लील गाने गाने के साथ मंच पर युवतियों को बुलाकर अश्लील हरकतें करने के लिए कुख्यात है। अलग-अलग शहरों में उसके इवेंट का विरोध होता रहा है।

खुलासा फर्स्ट के नाम से धमकाने वालों से...

# सावधान

खुलासा फर्स्ट के नाम से यदि कोई भी आपको धमकाता है, डराता है या किसी भी रूप में आपसे रुपयों की मांग करता है तो...

**88189 56789**

पर WHATSAPP या CALL करें...

